

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019—पौष 6, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए) 107-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण पु.मु., भोपाल को दिनांक 25 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए) 59-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पंकज कुमावत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर को खण्ड वर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 9 दिसम्बर 2019 तक, कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित जयपुर (राजस्थान) की भ्रमण

यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. श्री पंकज कुमावत | स्वयं |
| 2. श्रीमती अभिलाषा कुमावत | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज कुमावत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज कुमावत, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 165-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक पुलिसिंग), पु.मु., भोपाल को स्वयं के इलाज हेतु दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2019 तक, तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश के साथ मुम्बई (महाराष्ट्र) जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-1-40-2019-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2019 द्वारा श्री संजय तिवारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज (ग्रामीण), इन्दौर को London (U.K.) में M.C.T.P. प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 26-27 अक्टूबर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित London (U.K.) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी।

(2) श्री संजय तिवारी, भापुसे, द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश का लाभ न लेने के कारण दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2019 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए) 271-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अशोक दोहारे, भापुसे, डायरेक्टर, जनरल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2019 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 दिसम्बर 2019 व 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर भारत भ्रमण अन्तर्गत चेन्नई की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. श्री अशोक दोहारे | स्वयं |
| 2. श्रीमती नीता दोहारे | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दोहारे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न डायरेक्टर, जनरल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक दोहारे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दोहारे, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-82-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री विजय यादव, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2019 व 05 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अंकोरवाट (कंबोडिया), हनोई/हनोव्हे (वियतनाम) एवं बैकॉक (थाईलैण्ड) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री विजय यादव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक,

(योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय यादव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विजय यादव, भापुसे, द्वारा अपना के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल श्री विजय यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय यादव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए) 156-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर भारत भ्रमण अन्तर्गत लक्षदीप की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री रवि कुमार गुप्ता	स्वयं
2. डॉ. रचना गुप्ता	पत्नी
3. कु. झलक गुप्ता	पुत्री
4. श्री सिद्धांत गुप्ता	पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6370-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3464-A, इक्कीस-ब (दो), दिनांक 29 जून 2019 को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्रमांक 15961/2019 आनंद कुमार शुक्ला विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के परिपालन में आगामी आदेश तक स्थापित करता है.

साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को, जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की है, अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहित किया गया था. संबंधित जिला दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार पदाभिहित अपर लोक अभियोजकों को ऐसे सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु जिनके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(3) के अधीन नियुक्ति लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक किसी भी कारण से अस्थायी या स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, के उपलब्ध होने तक अधिकृत किया गया है, उन्हें उक्त निर्णय के पालन में तत्काल कार्य से विरत किया जावे.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6834-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 126).— राज्य शासन, सुश्री मीनल नंदेश्वर पुत्री श्री भाऊराव नंदेश्वर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 9 अप्रैल 1987 है.

फा. क्र. 6544-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 99).— राज्य शासन, श्री रौनक पाटीदार पुत्र श्री विजय कुमार पाटीदार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 18 फरवरी 1992 है.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6771-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 93).— राज्य शासन, श्री हरिहर गुप्ता पुत्र श्री सर्वेश कुमार गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुलतान व अन्य विरुद्ध यू. पी. पब्लिक सर्विस कमिशन व अन्य सिविल आपील 1867/2006 में पारित आदेश दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देश के अधीन इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि यदि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी.

अभ्यर्थी का गृह जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड) है. उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी 1994 है.

फा. क्र. 6784-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 44).— राज्य शासन, सुश्री रोहिणी उपाध्याय पुत्री श्री पारस नाथ उपाध्याय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला गाज़ीपुर (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 01 अक्टूबर 1993 है.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6878-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 155).— राज्य शासन, सुश्री लघुता मरकाम पुत्री श्री जवाहर सिंह मरकाम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मलिक मजहर सुलतान व अन्य विरुद्ध यू. पी. पब्लिक सर्विस कमिशन व अन्य सिविल आपील 1867/2006 में पारित आदेश दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देश के अधीन इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि यदि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी.

अभ्यर्थी का गृह जिला डिण्डौरी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 13 दिसम्बर 1995 है.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

पंजी क्र. 6867-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू), जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ श्री अमित सिंह सिसौदिया की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

पंजी क्र. 6871-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री विवेक कुमार पाठक, पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, सागर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी की सेवाएं उनके कार्य सौंपने के दिनांक से वापस कर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 6934-इक्कीस-ब (एक)-2019.—राज्य शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री अभय कुमार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति के नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 5 दिसम्बर 2019 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019

फा. क्र. 6573-अ-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा पूर्व के सभी आदेशों को अधिष्ठित करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर/ग्वालियर तथा नई दिल्ली में नियुक्त निम्नानुसार अतिरिक्त महाधिवक्ताओं/उप महाधिवक्ताओं के कार्यालय में, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन आगामी आदेश तक वृद्धि करता है:—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

1. श्री अजय गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर
2. श्री शेखर शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर
3. श्री प्रवीण दुबे, उप महाधिवक्ता, जबलपुर

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर संबंध नई दिल्ली

1. श्री वरूण कुमार चौपड़ा, उप महाधिवक्ता, जबलपुर
2. श्री वैभव श्रीवास्तव, उप महाधिवक्ता, जबलपुर
3. श्रीमती प्राची मिश्रा, उप महाधिवक्ता, जबलपुर

महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली

1. श्री प्रशांत कुमार, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
2. श्रीमती मधुरिमा मुद्गल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
3. सुश्री प्रगति नीखरा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
4. श्री सुशील फर्नांडिस, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली

5. श्री अवजीत सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
6. श्री विनीत मल्होत्रा, उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली
7. सुश्री समुन रानी, उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली
8. श्री संजीव महाजन, उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली
9. श्री कुबेर बौद्ध, उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर

1. श्री रविन्द्र छाबड़ा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, इन्दौर
2. श्री अभिनव पी. धनोदकर, उप महाधिवक्ता, इन्दौर

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

1. श्री अंकुर मोदी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

फा. क्र. 5606-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 63).— राज्य शासन, श्री कुणाल वर्मा पुत्र श्री आलोक कुमार वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला **भोपाल (मध्यप्रदेश)** है। उसकी जन्मतिथि **21 सितम्बर 1993** है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

पंजी क्र. 6445-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-पोहरी, जिला-शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 17 मई 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री मुख्तार अहमद सिद्धिकी का दिनांक 22 जून 2019 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 6446-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, सीधी में विभागीय आदेश दिनांक 3 अक्टूबर 2013 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री अंजनी कुमार सिंह का दिनांक 15 फरवरी 2018 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 6446-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, सीधी में विभागीय आदेश दिनांक 28 दिसम्बर

1998 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्रीमती शरीफन खातून, जिनका अंतिम बार नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण विभागीय आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा किया गया था, का दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-3-16-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-16-2017-अठारह-5, भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2017 के द्वारा गठित औबेदुल्लागंज निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची में दर्शाए अनुसार परिनिश्चित करती है:—

अनुसूची

औबेदुल्लागंज निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में—हरई से दिवटिया, विशनखेड़ा, सनौटी तथा खिल्लीखेड़ा की उत्तरी सीमा तक।

पश्चिम में—विशनखेड़ा, दिवटिया तथा हरई की पश्चिमी सीमा तक।

दक्षिण में—हरई, दिवटिया, टिगरिया तथा उमरिया की दक्षिणी सीमा तक।

पूर्व में—उमरिया, इकलामा तथा खिल्लीखेड़ा की पूर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव।

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-06-16-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, पुरानी जेल परिसर एवं भैल, दशहरा मैदान, भोपाल को विधान सभा बैठक दिनांक 17 दिसम्बर 2019 से 23 दिसम्बर 2019 के दौरान अस्थायी जेल घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 02-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति"(Consent Land Purchase Policy) के तहत रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि0मी0) के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग (भ0/स0) के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनमें प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि0मी0) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

—:अनुसूची:—

1. भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम— बिछुआ बग्गू प0ह0न0-11 ब0न0-273, रा0नि0मा-सौसर	1. कमलाबाई पति केशोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी—बिछुआ बग्गू 2. गोदावरी विधवा भगवतराव, विनोद पिता भगवतराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी—बिछुआ बग्गू 3. शिलाबाई पति मोरेश्वर, राजेश पिता मोरेश्वर निवासी	101/3 100/3 195	0.053 0.154 0.168	रामाकोना सावरनी रेलवे चौकी से बिछुआ बग्गू खैरी पहुंच मार्ग (लंबाई 04.05 कि0मी0) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

		सौसर			
		4. गिरजा, उर्मिला पिता सीताराम निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	88/3	0.144	
		5. मुकेश पिता दिनकर जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/1	0.018	
		6. विठ्ठल पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/2 224/7	0.050 0.025	
		7. भैयाजी, मोरेश्वर, विठ्ठल, सत्यवती, रुखमा, उषा पिता महादेव, जमना वि०कृष्णा लक्ष्मीबाई पिता कृष्णा जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/3 224/4	0.053 0.054	
		8. मोरेश्वर पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/5	0.050	
		9. भैयाजी पिता महादेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	224/6	0.069	
		10. राधे मिनरलस लि०द्वारा डारेक्टर महेश पिता देवदास गुप्ता निवासी नागपुर	222/1	0.028	
		11. गंगाधर पिता नामदेव वाठ जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	242/3	0.091	
		12. राजोशी वि			

		निलकंठ,तिरोना अ0 पिता निलकंठ राजोशी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	242/7	0.017	
		13. लिला पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	244/2	0.034	
		14. सरस्वती पति तुकाराम जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	244/1	0.028	
		15. गजानन पिता उमाजी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	246/1	0.020	
		16. रंगुबाई पति किसनाजी जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	246/3	0.022	
		17. चिन्धाबाई पति काशिनाथ जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	247	0.042	
		18. सीता, लिला, मीरा, चिरकुटी पिता नागोराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	248	0.101	
		19. ललीता, आशा पति चिंतामन जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू	250/2	0.045	
		20. धोन्डया पिता पांडुरंग जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि	251/3	0.020	

			स्वामी-बिछुआ बग्गू 21.कोटेश्वर पिता डोमदेव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू 22. पंढरी पिता गुंडेराव जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-बिछुआ बग्गू 23. सुरेखा पति हनुमंता धुन्डे जाति कुनबी निवासी ग्राम भूमि स्वामी-देवी	250/1 251/1 251/2 251/5	0.117 0.042 0.032 0.022	
		कुल योग		26	1.499 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-19-20-13814

मुरैना, दिनांक 23 नवम्बर 2019

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- नूराबाद, तहसील- बानमौर, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 09 कुल अर्जित रकवा 1.181 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूंबों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-बानमौर के ग्राम-नूराबाद, प.ह.नं 91 रा.नि. वृत्त-02 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 09 व कुल अर्जित रकवा 1.181 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	15/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.127	उदयमानसिंह पिता शिवनंदन सिंह जाति गुर्जर नि ग्राम भूमिस्वामी
2	15/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		शोभाराम मोहकमसिंह पि. सोवरन सिंह जाति गुर्जर नि0 ग्राम
3	679/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.169	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गुर्जर नि0 ग्राम भूमिस्वामी

4	679/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मीराबाई बेवा विद्याराम दलीप सतेन्द्र पुत्रगण विद्याराम स0 भाग0 जाति गुर्जर नि0 ग्राम भूमिस्वामी
5	687	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	रामनाथ पुत्र कुन्दन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6	688	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.276	रामदीन, समरसिंह, रामख्तयार पुत्रगण अन्तरामसिंह हि 3/4 मु लाली बेवा जनकसिंह सुनील आकाश नाबा पुत्रगण जनकसिंह सर. ताउ रामदीन हि 1/4 जाति गुर्जर नि ग्राम भूमिस्वामी।
7	689	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.251	शीलाबाई बेवा रघुनाथ नरेश राहुल नाबा0 पिता रघुनाथ सर0 मा खुद समान भाग जाति गुर्जर निवासी ग्राम
8	695	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.122	गिराज पुत्र ओमप्रकाश जाति गुर्जर नि ग्राम भूमिस्वामी
9	698	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	बीरेन्द्र पुत्र बैजनाथ जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमिस्वामी
कुल किता		09		1.181	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगाड़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 07-अ-82-भू-अर्जन-19-20-13834

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- दीखतपुरा, तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 23 कुल अर्जित रकवा 2.286 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-मुरैना के ग्राम-दीखतपुरा, प.ह.न...27... रा.नि. वृत्-02... में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 23 व कुल अर्जित रकवा 2.286 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वागित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	468	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.181	धनीराम पुत्र भरोषी रामरती गुडडी पुत्रियां भरोषी मु कौसी बेवा भरोषी जाति जाटव पता निवासी ग्राम रामान भाग भूमिस्वामी भू रा शा 399
2	469	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.163	पुंगा पुत्र हरीप्रसाद रामकटोरी पुत्री गनेशा हि 0. 891 है समान भाग पुष्पा देवी पत्नी संजय अर्गल पुत्री रोशनलाल हि 209 जाति जाटव मोहकम बा द्वारिका नावा लज्जाराम महादेवी गुडडी पप्पी ब गुडिया नावालिग पुत्रीयां लज्जाराम सरप मा खुद बत्तो बेवा लज्जाराम हि. 0.19 भूमि स्वामी श्रीमति कैलाशी पत्नी बारेलाल जा जाटव रकवा 0.16 हैक्टेयर बैजनाथ रघुवीर बालकिशन धारासिंह पुत्रगण हीरालाल उर्मिला पुत्री हीरालाल हि 0.20 भूमिस्वामी साहबसिंह पु रामसिंह लीलावती राजकुमारी नाबा पुत्री रामसिंह सर भाई खुदहि 0. 31 भूमिस्वामी वेजन्ती बेवा पहलूराम उर्फ पहलू हि 1/3 केदार पुत्र विक्रम कैलाशी पुत्री विक्रम समान भाग 2/3 दर भाग रकवा 0.17 नारायण बारेलाल बनवारी पि भीखा समान भाग रकवा 1.63 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बधेले पता निवासी ग्राम 0.49 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 40.68
3	472	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.112	रामचरन पुत्र फददी भग्गो पुत्री फददी जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू रा शा 448
4	473	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	रामचरन पुत्र फददी भग्गो पुत्री फददी जाति जाटव

					पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू रा शा 448
5	477	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.028	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
6	479	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
7	480	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
8	482	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	रामेश्वरसिंह बचनसिंह रणवीरसिंह वीरेन्द्रसिंह बृजमोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भूराशा 50
9	485	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	मु हरीभैजी बेवा जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी सिकरौदा भूमिस्वामी भू राजस्व 3.81
10	486	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	मु हरीभैजी बेवा जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी सिकरौदा भूमिस्वामी भू राजस्व 3.81
11	487	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	रामवरन बलिराम श्रीकृष्ण देशराज गिराज पिता रामदीन शर्मा जाति ब्रा10 पता निवासी ग्राम सिकरौदा भूमिस्वामी भू राजस्व 1.60
12	488	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	राजेशसिंह पुत्र बरजोरसिंह जाति गु0ठा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू रा शा0 255
13	491	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005	राजेशसिंह पुत्र बरजोरसिंह जाति गु0ठा0 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू रा शा0 255
14	492	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.222	गजेन्द्रसिंह पिता कदमसिंह जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू रा शा0 291
15	493	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.154	मु कस्तुरी बे सिद्धारसिंह मुकेश पु सिद्धार विमला पुत्री सिद्धार 1/2 राजाबेटी बे हाकिमसिंह जाति बघेले पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 2.70
16	494	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.102	रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बघेले पता निवासी पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व 2.00
17	495	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039	पुन्ना पुत्र हरीप्रसाद रामकटोरी पुत्री गनेशा हि 0.891 है समान भाग पुष्पा देवी पत्नी संजय अर्गल पुत्री रोशनलाल हि 209 जाति जाटव मोहकम बा द्वारिका नावा लज्जाराम महादेवी गुड्डी पप्पी ब गुडिया नावालिग पुत्रीयां लज्जाराम सरप ना खुद बत्तो बेवा लज्जाराम हि. 0.19 भूमि स्वामी श्रीमति कैलाशी पत्नी बारेलाल जा जाटव रकवा 0.16 हैक्टयर बैजनाथ रघुवीर बालकिशन धारासिंह पुत्रगण हीरालाल उर्मिला पुत्री हीरालाल हि 0.20 भूमिस्वामी साहबसिंह पु रामसिंह लीलावती राजकुमारी नाबा पुत्री रामसिंह सर भाई खुदहि 0.

					31 भूमिस्वामी वेजन्ती बेवा पहलूराम उर्फ पहलू हि 1/3 केदार पुत्र विक्रम कैलाशी पुत्री विक्रम समान भाग 2/3 दर भाग रकवा 0.17 नारायण बारेलाल बनवारी पि भीखा समान भाग रकवा 1.63 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बघेले पता निवासी ग्राम 0.49 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 40.68
18	496	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	पुन्ना पुत्र हरीप्रसाद रामकटोरी पुत्री गनेशा हि 0.891 है समान भाग पुष्पा देवी पत्नी संजय अर्गल पुत्री रोशनलाल हि 209 जाति जाटव मोहकम बा द्वारिका नावा लज्जाराम महादेवी गुड्डी पप्पी ब गुडिया नावालिग पुत्रीयां लज्जाराम सरप मा खुद बत्तो बेवा लज्जाराम हि. 0.19 भूमि स्वामी श्रीमति कैलाशी पत्नी बारेलाल जा जाटव रकवा 0.16 हैक्टैयर बैजनाथ रघुवीर बालकिशन धारासिंह पुत्रगण हीरालाल उर्मिला पुत्री हीरालाल हि 0.20 भूमिस्वामी साहबसिंह पु रामसिंह लीलावती राजकुमारी नाबा पुत्री रामसिंह सर भाई खुदहि 0.31 भूमिस्वामी वेजन्ती बेवा पहलूराम उर्फ पहलू हि 1/3 केदार पुत्र विक्रम कैलाशी पुत्री विक्रम समान भाग 2/3 दर भाग रकवा 0.17 नारायण बारेलाल बनवारी पि भीखा समान भाग रकवा 1.63 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल जाति बघेले पता निवासी ग्राम 0.49 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 40.68
19	497	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	गजेन्दसिंह पु कदमसिंह 1/2 गुठानि० ग्राम रामस्वरूप पुत्र गोरेलाल हि 1/2 जाति बघेले पता निवासी पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व 1.70
20	501	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.464	द्वारिकासिंह पुत्र पारथ सिंह कोम गुठानि० मुरेना
21	502	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.188	गेंदालाल बेतालसिंह पि पंचमसिंह समान भाग रकवा 0.24 जगदीश बा टीकाराम छोदू नाबा पु मोतीराम 0.75 सर पिता खुदा मोतीराम जाति बघेले पता नि. पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 10.50

22	503	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.233	गेंदालाल बेतालसिंह पि पंचमसिंह सम्मान भाग रकवा 0.24 जगदीश बा टीकाराम छोटा नाबा पु मोतीराम 0.75 सर पिता खुदा मोतीराम जाति बघेले पता नि. पिपरसा भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 10.50
23	532	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.096	श्रीमती गीता सिंह पत्नी राजूसिंह कंसना जाति गुर्जर ठाकुर पता नि एम एस रोड मुरैना भूमिस्वामी भू राजस्व 7.25
कुल किता 23				2.286	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 08-अ-82-भू-अर्जन-19-20-13813

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- पिपरसा, तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 06 कुल अर्जित रकवा 0.586 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-मुरैना के ग्राम-पिपरसा, प.ह.नं 91 रा.नि. वृत्- 02 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 06 व कुल अर्जित रकवा 0.586 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	306	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	अजमेर गंदालाल बहादुर बेताल राजवीर पि पंचम उर्फ पंचा लाली गीता पाना पुत्रियां पंचम उर्फ पंचा बैकुण्ठी बेवा पंचम उर्फ पंचा हि 1/6 रामेश्वर पि0 चन्दना जाति गडरिया पता नि0 ग्राम 1/6 भाग भूमिस्वामी विद्याराम मोतीराम पि. शंकर जाति गडरिया पता नि ग्राम भूमि स्वामी रामप्यारी किशनदेई पुत्रियां शंकर जाति गडरिया पता नि. ग्राम 4/15 समान भाग भूमिस्वामी रामस्वरूप पि. सलिका 1/9 पुनियां पुत्री सलिका 1/3 जाति गडरिया पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी महेन्द्रसिंह वीरेन्द्रसिंह, लोकेन्द्रसिंह रामप्रसाद, कैलाशीबाई, बडी गुडिया, छोटी गुडिया पु. रामप्रसाद मु रामबेटी बे. रामप्रसाद समान भाग 1/15 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू0रा10शा10 192
2	308	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.017	रामस्वरूप सूरत राम पिता गोरे 8/9 द्रोपती पुत्री गोरे 1/9 जाति गडरिया पता नि ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 4.53
3	310/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.022	मोहनसिंह मुरारीलाल बालिग भोलाराम सुदामा नाबा0 पि पतिराम सर माँ खुद जाति गडरिया पता नि ग्राम भूमिस्वामी मु धनो बेबा पतिराम जाति गडरिया पता नि ग्राम 1/4 समान भाग भूमिस्वामी रामलखन बनवारी भीमसेन पुत्रगण भरोषी उर्मिला पुत्री भरोषी भागवती बेवा भरोषी हि 1/4 धर्मन्द्र पुत्र भागीरथ जानकी पुत्री भागीरथ पि. तातिया जाति गडरिया पता नि ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी रामकिशोर ईशु नाबा पुत्रगण लक्ष्मी सरप

					मां खुद मीरा बेवा लक्ष्मी 1/12 समान भाग भूमि स्वामी जंगजीत पु. रघुनाथ कैलाशी, रामवती रामबेटी पुत्रियान रघुनाथ जाति गडरिया पता नि ग्राम 1/4 समान भाग भूमि स्वामी भूराजस्व बिलमुक्ता 21.50
4	501/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	पूरनसिंह पु. गंगाराम केतुकी बेवा गंगाराम जाति गडरिया पता नि ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 4.55
5	503	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	हुकमा जसराम पिता बिहारी रामश्री पुत्री बिहारी जाति गडरिया पता नि ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराशा 196
6	361/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0-017	पूरनसिंह पुत्रराजाराम सुन्दरिया पुत्री राजाराम जाति गडरिया पता नि 0 ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भूराशा 281
कुल कित्ता		06		0.586	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्जासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-19-20-13835

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के लिये ग्राम- नायकपुरा, तहसील- मुरैना, उपखण्ड- मुरैना, जिला-मुरैना में कुल किता 04 कुल अर्जित रकवा 0.428 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूंबों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना, तहसील-मुरैना के ग्राम-नायकपुरा, प.ह.नं 06 रा.नि. वृत्त- 02 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 01 व कुल अर्जित रकवा 0.21 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
	2	3	4	5	6
	32	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.21	कुन्जमनि पुत्र पहाडसिंह सोवरनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह मु बादामी बेवा रघुवरसिंह रामधन गंदालाल, मेहतासिंह, रामू कालीचरन पुत्र रघुवरसिंह, भागवती पुत्री रघुवरसिंह मु मीरा बेवा पंजाबसिंह बन्टी अनील धर्मवीर नाबा पुत्र पंजाबसिंह सर माँ खुद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बहादुरसिंह रोशन पुत्र गोपालसिंह मु विट्टो बेवा गोपालसिंह समान अमरसिंह परिमाल वा निरोत्तमसिंह, केशवसिंह नाबा पुत्र मंगाराम सर भाई अमरसिंह खुद मु रामदुलारी बेवा मंगाराम समान महेन्द्रसिंह, कृपाराम, विद्याराम, पूरनसिंह, सीताराम पुत्र रामनाथसिंह समान भाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्री कृष्ण, ग्यासीराम, पंचमसिंह व दरिकासिंह, रामजीलाल पुत्र पारथसिंह, रामेश्वर, वचनसिंह रनवीर वीरेन्द्रसिंह, बृजमोहन पुत्र देवीसिंह रामकेश मुक्ता राजेश पुत्र वर जोरसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गजेन्द्रसिंह राम पुत्र कदमसिंह, मु. काशीआई बेवा कदमसिंह समान फेरनसिंह पुत्र ग्याराम, रूषोत्तम, दीवानसिंह, विशालसिंह, महेन्द्रसिंह, राधाजसिंह, श्रीमानसिंह, कैलाससिंह, भरतसिंह, पुत्र भगवानसिंह मु रामरती, बेवा भगवानसिंह उर्मिला पुत्री भगवानसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामप्रसाद, जेन्द्रसिंह जैकमसिंह पुत्र दामोदरसिंह लाली कल्लो पुत्री दामोदरसिंह मु असफ़ी बेवा दामोदरसिंह दीनानाथसिंह गिन्द्रसिंह, सीताराम पुत्री हरीसिंह, श्यामसुन्दर पुत्र नवलसिंह पूरनसिंह एदलसिंह पुत्र होतमसिंह मोना पुत्री होतमसिंह । द्रोपती बेवा होतमसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी राजेन्द्रसिंह दलीपसिंह पुत्र माधूसिंह मु वनभूषा बेवा माधूसिंह समान मुशीसिंह पुत्र बलवन्तसिंह, दामोदर प्रसाद सियाराम पुत्र हाकिमसिंह समान सरदारसिंह पुत्र नारायणसिंह शांती बादामी प्रभा पुत्री नारायणसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कप्तानसिंह पुत्र मुंशीसिंह

				नाबा सर मां कचनसिंह बेवा पछीसिंह समान मु नारायणी बेवा हाकिमसिंह दामोदर वीरेन्द्रसिंह पुत्र हाकिमसिंह सरदार पुत्र जसराम समान सुल्तानसिंह पुत्र अंगोसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु रामवती बेवा कल्यानसिंह राकेश वा शतेन्द्र जोगेन्द्र नाबा पुत्रय कल्यानसिंह रजनी खुशबू मनीषा नाबा पुत्री कल्यानसिंह समान हरिगोविन्द वल्देव शिवलाल पुत्र गरसिंह नाहरिया पुत्र मुरली अंगद पुत्र सूरजहंस वरजोरसिंह पुत्र श्यामलाल, श्यामलाल पुत्र दनकसिंह जगदीश केंदार पुत्र पीतमसिंह मु हरिकुअरि बेवा पीतमसिंह समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बदनसिंह गनपति सुधरसिंह राजाराम पुत्र चक्रपान श्रीपति कल्यानसिंह पुत्र प्रहलादसिंह कमलसिंह मानसिंह पुत्र सियाराम पातीरमा हलुकी रोशन पुत्र रामचरन समान करनसिंह पुत्र हरिबक्स दुर्जना पत्र रामचन्द विक्रम पुत्र प्रताप हल्लू पुत्र गोविन्दा जाहरसिंह पुत्र भीखाराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्रीकृष्ण पुत्र विधीचन्द्र हुक्मसिंह पुत्र करनसिंह, रामधन, रामचरनसिंह रामजीसिंह पुत्र रतनलाल समान भोगीराम सरमन पुत्र रामकिशुन बैकुन्डी पुत्री रामकिशुन महावीर नत्था बचनसिंह ग्यासीराम पुत्र भोगीराम समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी शिवसिंह ग्याराम नाहरिया पुत्र चन्कपान मु विट्टो बेवा रामचित्र बदीपुत्र भीष्वा, लक्ष्मन मातादीन एवरन पुत्र अन्तराम नाबा सरमा तलफा खुद जाति गु0ठा0 पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 13.18
कुल किरा	01	0.21		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम रूजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 64-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2018-14122

मुरैना, दिनांक 30 नवम्बर 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-दीपैरा, प0ह0क0- रा0नि0 वृत्- तहसील -कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में कुल 3.932 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- दीपैरा, प0ह0क0- रा0नि0 वृत्- तहसील- कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	कैलारस
ग. ग्राम	दीपैरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	3.932 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-	

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4		5	6
1	1154/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303	0.011	भरोषी पुत्र चुन्नी जाति कुम्हार नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार वना भूमिस्वामी
2	1154/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.314	0.058	खचेरी पुत्र चुन्नी जाति कुम्हार नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार वना भूमिस्वामी
3	1156	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.473	0.971	मुरारी लाल पुत्र मनफूल वृजकिशोर पुत्र सियाराम जाटव हि.41 8/1473 बदन सिंह,सरनाम रामवीर बा. जनक सिंह ना.बा. पुत्रगण विसराम हि.1/2 गीता देवा रामवरन आशिक ना.मारिया कविता लाली निविशा ना.बा. पुत्रियां रामवरनहि. 1/6 रघुवीर बा. बंटी ना.बा. पिता रतीराम हि.1/3 दर हि. 1055/1473 जाति काछी नि.ग्राम

4	1161/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.617	0.354	किशुनलाल पुत्र मुरली जाति त्यागी नि.स्यावटा भूमि स्वामी
5	1163/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.421	0.155	गीता देवी पत्नी रामविलास हि.1/2 निवासी उत्तमपुरा मुरैना मुन्शी लाल पुत्र दुर्जन हि.1/2 जाति जाटव निवासी मुरैना गॉव भूमि स्वामी
6	1164	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.502	0.463	रामवती पत्नी लालाराम जाति जाटव नि.ग्राम हाल नि.कैलारस भूमि स्वामी
7	1165/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.732	0.044	भागीरथ पुत्र बृखभान जाति त्यागी नि. स्यावटा भूमि स्वामी
8	1165/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	0.129	खचेरी बा.इतवारी ना.बा. पुत्रगण तेज सिंह सर.खुद मॉ रामश्री प्रेमा पुत्री तेज सिंह जाति कोरी नि.ग्राम भूमि स्वामी
9	1166/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.256	0.009	बाबू पुत्र लखुआ जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
10	1284	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	0.008	बीरवल दत्तक पुत्र रघुवर जाति त्यागी नि. स्यावटा
11	1285/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	0.005	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा.राजेन्द्र ना.बा पुत्रगण सोनेराम हि.1/3 रामकवेरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4 समान करन सिंह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
12	1285/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	0.009	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी गोपाल माखन बा.राजेन्द्र ना.बा पुत्रगण सोनेराम हि.1/3 रामकवेरी सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4 समान करन सिंह नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
13	1290	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.773	0.071	लखपति पुत्र बलवन्त जाति त्यागी नि. ग्राम स्यावटा भूमि स्वामी
14	1292/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.836	0.377	सिददार पुत्र बाजीराव जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	1292/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470		मुन्नी बेवा सोनेराम वासुदेव बंटी बा. गोपाल माखन राधे ना.बा.

					0.470	पुत्रगण सोनेराम ना.बा. सर.माँ खुद रेखा पुत्री सोनेराम जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
16	1293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	0.084	सिददार पुत्र बाजीराव हि.1/3 मु. मुन्नी बेवा सोनेराम ,बासुदेव ,बंटी , गोपाल ,माखन बा. राजेन्द्र ना. बा. पुत्रगण सोनेराम सर.माँ खुद रेखा पुत्री सोनेराम हि.1/30 रामकटोरी ,सन्तो पुत्रियां बाजीराव हि.3/4समान करन सिंह ,नेतराम पुत्रगण हलुके भन्ती पुत्री हलुके हि.1/4 दर हि.14/15 समान भाग जाति काछी नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	1294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.805	0.714	मुन्नी बेवा सोनेराम बासुदेव ,बंटी बा.गोपाल माखन ,राजेश ना.बा. पुत्रगण सोनेराम रेखा पुत्री सोनेराम ना.बा.सर.माँ खुद समान भाग जाति काछी निवसी ग्राम भूमि स्वामी
कुल कित्ता	17			8.625	3.932	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सख्तगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

टिप्पणी :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. अ-82-38-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-छाहर-14326

मुरैना, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- छाहर, तहसील व उपखण्ड- सबलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.227 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सबलगढ़ के ग्राम- छाहर प0ह0नं0-09 रा0नि0वृत्-01 में उक्त परियोजना के लिये 2.227 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	136 ✓	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.151 ✓	रामदयाल पुत्र खूबा जाति जाटव नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।
2	140 ✓	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010 ✓	केदार भरोषीलाल नरोत्तम पुत्रगण मुल्लाराम जाति गौड पता नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।
3	142 ✓	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200 ✓	किन्ती बेवा भौदू रघुराज केशव आ0 भौदू सुआ उर्फ सियाबाई पुत्री भौदू स0भा0 हि0 1/3 कमला बेवा सियाराम लोकेश लवकेश आ0 सियाराम काजल पुत्री सियाराम स0भा0 हि0 1/3 गोरेलाल श्रीधर गजाधर वीरबल गिराज आ. शंकरिया अजुद्धी कमला बिमला पुत्रीयां शंकरिया स0भा0 हि0 8/27 साबो बेवा चिरोंजी लाखन माखन अजीत महावीर आ0 चिरोंजी माया पुत्री चिरोंजी स0भा0 हि0 1/27 जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
4	143/1 ✓	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.203 ✓	रामदयाल पुत्र खूबा जाति जाटव पता नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।
5	143/2 ✓	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.168 ✓	मु0 ल्हौबा वेबा खूबा बट्टी प्रसाद रामदयाल भागीरथ पुत्रगण खूबा कौशा पुत्री खूबा स0 भाग जाति जाटव पता नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।
6	143/3 ✓	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.144 ✓	रामदयाल पुत्र खूबा जाति जाटव पता नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।
7	143/4 ✓	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.122 ✓	मु0 ल्हौबा वेबा अमरू, ओमप्रकाश पुत्र अमरू रामकट्टेरी ज्ञानेश्वरी राजकुमारी महेश्वरी पुत्रीयां अमरू जाति जाटव पता नि0 ग्राम टेंटरा भूमिस्वामी।

8	144	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	किन्ती बेवा भौदू रघुराज केशव आ० भौदू सुआ उर्फ सियाबाई पुत्री भौदू स०भा० हि० 1/3 कमला बेवा सियाराम लोकेश लवकेश आ० सियाराम काजल पुत्री सियाराम स०भा० हि० 1/3 गोरेलाल श्रीधर गजाधर वीरबल गिराज आ. शंकरिया अजुद्धी कमला बिमला पुत्रीयां शंकरिया स०भा० हि० 8/27 साबो बेवा चिरोंजी लाखन माखन अजीत महावीर आ० चिरोंजी माया पुत्री चिरोंजी स०भा० हि० 1/27 जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
9	148	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.076	श्रीपति प्रहलाद रामसिंह हरीसिंह पुत्रगण तोफनिया क्रांति रामकटोरी पुष्पा पुत्रियां तोफनिया स० भाग जाति जाटव नि० ग्राम टेंटरा।
10	149	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.024	श्रीपती प्रहलाद रामसिंह हरीसिंह आ० तोफनिया कान्ती रामकटोरी पुष्पा पुत्रियां तोफनियां स०भा० जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	151	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.026	रजनीसिंह पति उदयभानसिंह जाति ठाकुर नि० खोह भूमिस्वामी।
12	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	अजुद्धी बेवा छोटे सुगन उम्मेद पुत्रगण छोटे सामन्ती रुमाली प्रेम महेश्वरी पुत्रियां छोटे गुडडी नाबा० पुत्री सीता सर० सुगन काका खुद जाति जाटव स०भा० 0.36 आरे परसोली पुत्र बिहारी हि० 0.36 आरे कम्मोदा पुत्री बिहारी हि० 0.06 बहादुर राजेन्द्र भीरसिंह पुत्रगण परसोली जाति जाटव स०भा० हि० 0.48 आरे पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.076	दुर्गादेवी पत्नी हरिहर गीतादेवी पत्नि मनमोहन मनीषा पत्नि दाताराम स० भाग जाति ब्रा० नि० ग्राम टेंटरा।
14	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	हैरीलाल काशीराम दिनेश पुत्रगण बुद्धु स०भा० जाति कहार पता नि० टेंटरा भूमिस्वामी।
15	179/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.600	काशीराम आत्मज बंशी जाति कुम्हार नि० ग्राम भूमिस्वामी।
16	179/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.216	रामस्वरूप पुत्र बंशी जाति कुम्हार नि० ग्राम भूमिस्वामी।
कुल 16 सर्वे नं० में				2.227 है०	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 59-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-मुरैना-14142

मुरैना, दिनांक 30 नवम्बर 2019

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-बकसपुर, प0ह0क0-...50..... रा0नि0 वृत्-...04 तहसील-सवलगढ उपखण्ड-सवलगढ जिला-मुरैना मे कुल 9.803 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-बकसपुर, प0ह0क0-...50..... रा0नि0 वृत्-07 तहसील-सवलगढ उपखण्ड-सवलगढ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ
ग. ग्राम	बकसपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	9.803 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वेनं बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4		5	6
1	1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.000	0.580	काशीराम पुत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरै पुत्राण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादेन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी मकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीता गीता पुत्री

						<p>भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ</p>
2	2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.099	<p>काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जादीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल बेला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह</p>

						माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
3	3/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	0.496	लालपति कल्याण रामस्वरूप पुत्रगण अंगद जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम मुरवई समान भाग हि0 7/26 नारायण सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गुर्जर निवासी मुरवई हि0 19/26 भूमिस्वामी
4	3/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.340		काशीराम पुत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मा0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 माताक्षेन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी मन्कटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जादीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लाला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 212/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255

						<p>पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि० 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि० 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि० 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि० 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि० ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि० रफवा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि० 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ</p>
5	5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.620	0.412	<p>काशीराम पुत्र लोडू हि० 11.5/1020 मु० बैजन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मां० स० भाग 1/6 हि० 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स० भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि० 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादेन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी मन्कटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जक्षीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लाला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि० 232/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि० 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602</p>

						<p>ल्लोई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुर पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीय कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावर्त फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ</p>
6	6/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.440	0.371	<p>काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 बैजन्ती बेबा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेबा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्लोई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग</p>

						34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
7	6/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210		नारायण सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गुर्जर निवासी मुरवई भूमिस्वामी
8	7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.720	0.664	काशीराम पूर लोटू हि0 11.5/1020 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास गवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती

						फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ
9	8	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.473	काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/1020 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरम0 मां0 रा0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र

						सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र, जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशावाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुताघान सबलगढ
10	9	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	0.200	शान्ती बेवा रामस्वरूप रामसिंह रामभजन रामकुमार पुत्र रामस्वरूप ममता पुत्री रामस्वरूप समान भाग 1/3 अन्जली रामबाई पुत्रीयां किसुनलाल समान भाग 2/3 जाति खटिक नि बकसपुर भू-दान कृषक
11	10	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.220	शान्ती बेवा रामस्वरूप रामसिंह रामभजन रामकुमार पुत्र रामस्वरूप ममता पुत्री रामस्वरूप समान भाग 1/3 अन्जली रामबाई पुत्रीयां किसुनलाल समान भाग 2/3 जाति खटिक नि. बकसपुर भू-दान कृषक
12	11	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	0.024	काशीराम पुत्र लोडू हि0 11.5/1020 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रीयां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602

						<p>ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग 34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्रम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कुतघान सबलगढ</p>
13	18	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	0.027	<p>काशीराम पूत्र लोटू हि0 11.5/1020 गु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवलसिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप0 मां0 स0 भाग 1/6 हि0 11.5/1020 लालपति रतनलाल सोनेराम पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 3/5 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 1/5 दुलारे भीमसेन पुत्रगण मठलू कमलेश मिथलेश आरती अनीता पुत्रीयां मठलू समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 भूमिस्वामी परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रीयां परिमाल समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग 1/5 दर भाग 34/255 जीवनलाल पुत्र घन्सू भाग 34/255 पता निवासी विक्रमपुरा भूमिस्वामी रामकटोरी बेबा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भगवानलाल लीला गीता पुत्री भगवानलाल समान भाग हि0 2202/2602 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 400/2602 दर भाग 34/255 पता नि0 ग्रम भूमिस्वामी श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह समान भाग 400/2602 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण सामलिया समान भाग 1600/2602 ल्होई बेबा कुअरपाल रोशन रूपसिंह रायसिंह पुरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ती भूरी रामा पुत्रीयां कुअरपाल समान भाग 600/2602 दर भाग</p>

						34/255 रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कृलावती फुलवती गुलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग हि0 2402/2602 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 200/2602 दर भाग 34/255 मुन्शी पुत्र सामलिया हि0 21/1020 ओमप्रकाश पुत्र जनवेद भाग 2/1020 लालपति पुत्र झीगुरिया हि0 10/1020 रतनलाल पुत्र झीगुरिया हि0 11/1020 दर भाग 34/255 जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम खरीपुरा भूमिस्वामी सोवरन पुत्र होतम सिंह जाति रावत निवासी निरावली तहसील ग्वालियर हि0 रकबा 113/1020 केदार राजाराम अमरसिंह पुत्रगण लौडू समान भाग हि0 24/1020 जाति काछी निवासी ग्राम कृतधान सबलगद
14	19	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.460	0.460	बाकेलाल सूखा महेश पिता किशुनलाल शान्ती मुन्नी पिता किशुनलाल जाति पहार नि0 बकसपुर समान भाग बाबूलाल दयालीराम पुत्रगण लल्लूराम जाति गौड निवासी ग्राम समान भाग
15	20	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.740	0.849	बाकेलाल सूखा महेश पिता किशुनलाल शान्ती मुन्नी पिता किशुनलाल जाति पहार नि0 बकसपुर समान भाग बाबूलाल दयालीराम पुत्रगण लल्लूराम जाति गौड निवासी ग्राम समान भाग
16	21	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.850	0.509	मुन्शी पिता सामलिया जाति काछी पता नि0 ग्राम मुरबई मजरा टपरी पुरा भूमि स्वामी
17	22 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.770	0.712	उम्मेद पिता सामलिया भाग 51/77 मु0 बैजन्ती बेवा हरिविलास नवलसिंह गोरे पुत्रगण हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजयसिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप मां खुद समान भाग 1/6 हि0 रकबा 21-1/2/77 काशीराम पुत्र लोडू हि0 4-1/2/77 जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
18	22 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250		लालपति कल्यान रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम मुरबई भूमि स्वामी
19	38	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.067	लालपति कल्यान रामस्वरूप पुत्र अंगद जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम मुरबई भूमि स्वामी
20	39	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.330	काशीराम पुत्र लोडू (6-1/2/713) 13/1426 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सरप मां स0 भाग हि0 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झीगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति

						<p>रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अनीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल हि0 समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग हि. 1/5 नि. खरिपुरा दर भाग 193/1426 दर भाग 193/713 भूमिस्वामी जीवनलाल पुत्र घन्सू हि. 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि0 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ0 शामलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्रगण देवीरम कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा</p>
21	40	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.080	शीला देवी पत्नी सोनेराम जाति काछी पता निवासी ग्राम खरिपुरा
22	41	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.290	0.278	काशीराम पूत्र लोटू (6-1/2/713) 13/1426 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सप्त0 मां0 स0 भाग हि0 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झीगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अनीता आरती पुत्रीयां

						<p>मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल हि0 समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग हि. 1/5 नि. खरिपुरा दर भाग 193/1426 दर भाग 193/713 भूमिस्वामी जीवनलाल पुत्र घन्सू हि. 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि0 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ0 शामलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूसारी पुत्रगण देवीरम कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा</p>
23	44	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.840	0.103	<p>काशीराम पूत्र लोटू (6-1/2/713) 13/1426 मु0 बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु0 विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा0 पुत्र विजयसिंह सप्त0 मां0 स0 भाग हि0 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झीगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अनीता आरती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसराम विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल हि0 समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुकमा रामा पुत्री हुकमा समान भाग हि. 1/5 नि. खरिपुरा दर भाग</p>

						<p>193/1426 दर भाग 193/713 भूमिस्वामी जीवनलाल पुत्र घन्सू हि. 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि० 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि० 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि० 645/1845 राममजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरण पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि० 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ० शामिलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्रगण देवीरम कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि० 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामिलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा</p>
24	50	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.700	0.087	<p>काशीराम पुत्र लोटू (6-1/2/713) 13/1426 मु० बैजन्ती बेवा हरीविलास नवल सिंह गौरे पुत्रगण हरिविलास सम्पतिया गीता पुत्रियां हरिविलास समान भाग 5/6 मु० विमला बेवा विजय सिंह फूलसिंह नाबा० पुत्र विजयसिंह सरप० मा० स० भाग हि० 1/6 दर भाग 63/1426 पता विजयपुर सोनेराम पुत्र झीगुरिया रकबा 0.08 ओरे लालपति रतनलाल सोनेराम पिता झीगुरिया रामरती पुत्री झीगुरिया समान भाग 4/5 दुलारे भीमसेन पुत्र मठलू कमलेश मिथलेश अनीता भारती पुत्रीयां मठलू जाति काछी निवासी खरिपुरा समान भाग 1/5 दर भाग 193/1426 परसन्दास विशराम पुत्रगण परिमाल किन्ता कमला पुत्रियां परिमाल हि० समान भाग 4/5 मातादीन पुत्र हुक्मा रामा पुत्री हुकमा समान भाग हि. 1/5 नि. खरिपुरा दर भाग 193/1426 दर भाग 193/713 भूमिस्वामी जीवनलाल पुत्र घन्सू हि. 48/713 भरतलाल लक्ष्मण पुत्रगण जीवनलाल समान भाग 27/713 निवासी खरिपुरा रामकटोरी वेवा भगवानलाल महेश सियाराम जगदीश कोकसिंह शिशुपाल पुत्रगण</p>

						भवानलाल लीला गीता पुत्रीयां भगवानलाल समान भाग हि0 1845/2095 गेंदा पुत्र सामलिया हि0 280/1815 दर भाग 96/713 श्रीनिवास पुत्र जैसिंह माया पुत्री जैसिंह हि0 645/1845 रामभजन पुत्र जिवनलाल भाग 21/713 ल्होई वेवा कुअरपाल रोसन रूपसिंह रायसिंह पूरन पुत्रगण कुअरपाल शान्ति भूरी रामा पुत्रिया कुअरपाल समान भाग हि0 440/1845 उम्मेद मुन्शी आ0 शामिलिया समान भाग 760/1845 दर भाग 96/713 रामहेत मूरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फूलवती गूलवौ चन्द्रवती पुत्रियां देवीराम समान भाग 1485/1845 सोनेराम पुत्र झीगुरिया हि0 360/1845 दर भाग 97/713 सोनेराम पुत्र झीगुरिया भाग 13/713 उम्मेद मुन्शी पुत्रगण शामिलिया समान भाग 25/713 मुन्नी देवी पत्नी केदार भाग 59/713 दर भाग 97/713 निवासी खरिपुरा
25	52	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.340	0.068	रामकुमार मूलचन्द्र जितेन्द्र कुमार आ0 मुरारी लाल मीराबाई कुशुम रेखा अंजू बवीता सूनीता शम्भो पुत्रीयां मुरारीलाल जाति बैश्य पता नि0 ग्राम सवलगढ
26	53	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.033	केदार पुत्र रामदयाल जाति काछी पता नि0 ग्राम सवलगढ 1/2 भूमिस्वामी
27	54 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.770	0.039	केदार पुत्र रामदयाल जाति काछी पता नि0 ग्राम सवलगढ 1/2 भूमिस्वामी
	54 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि			रामहेत मुरारी पुत्रगण देवीराम कलावती फूलवती गुलवो चन्द्रबद्री पुत्रियां देवीराम समान भाग 1/2 नि0 खरीपुरा
28	55	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.880	0.298	मनीराम सीताराम पुत्रगण छोटे समान भाग 170/1680 जाति किरार निवासी ग्राम राजेश पुत्र फुन्दी हि0 3/1680 जाति पहार केदार जगदीश पुत्रगण सोनेराम समान भाग हि0 422/1680 कमला पत्नी केदार लोंगश्री पत्नी परस्तराम गणगोर पत्नी जगदीश समान भाग 212/1680 मु. जीगन्दे वेवा ग्यासिया घनस्याम पुत्र ग्यासिया वसन्ती अन्तो वाई दोपती पुत्रियां ग्यासिया जाति काछी निवासी ग्राम समान भाग 33/420 सोनेराम पिता दुल्ली भाग 33/420 सम्पति वेवा गंगाराम रामदयाल अमुतलाल मोहरसिंह पुत्रगण गंगाराम अनेगा पुत्री गंगाराम समान भाग हि0 115/1760 मु. रामसखी वेवा रघुवीर राजकमल नाबा0 पुत्र रघुवीर प्रीती वंदना नाबा पुत्रियां रघुवीर सर मा

						खुद समान भाग 23/1760 दर भाग 396/1680 लाखन उदयसिंह गजराज पुत्रगण हीरालाल रेवती गीता फूलवती पुत्रियां हीरालाल समान भाग 7/8 गौरी वेवा सिद्धार अतरसिंह पुत्र सिद्धार समान भाग 1/8 दर भाग 132/1680 मु. गुलवौ वेवा बिजुआ 44/1680 रूपसिंह पुत्र विजुआ भाग 44/1680 मु0 मीरा वेवा हुकमसिंह शिवा शिवम नाबा पुत्र हुकमसिंह समान भाग 44/1680 जाति काछी नि. बकसपुर
29	56	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.046	मुनीराम सीताराम आ0 छोटे समान भाग जाति धाकड पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
30	57	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.103	भरोषी दाताराम रामचरन कल्ला पुत्रगण वालू समान भाग 1/6 किशोरी रामनिवास अशोक जगदीश आ0 पोथी मु. विलासी वेवा पोथी गुडडी पुत्री पोथी समान भाग 1/6 मु. सन्तो वेवा प्रभु सुरेश बांके पुत्रगण लक्ष्मण राधा कुशुम पुत्रियां प्रभु जाति पहार निवासी ग्राम समान भाग 1/6 जंसवत पुत्र मूंगाराम हि0 1/6 राजेन्द्र विरेन्द्र हरिराम लल्लन पुत्रगण द्वारिका स0भा0 1/6 अंगूरी पुत्रियां लक्ष्मण हि0 1/6 जाति पहार निवासी ग्राम
31	59	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.021	गोपाल पुत्र लोडू हि0 6/7 कमला वेवा सांमत जाति किरार निवासी ग्राम हि0 1/7
32	60	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.520	0.193	मनीराम पुत्र छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
33	61 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.092	मनीराम पुत्र छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
34	61 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	0.089	सीताराम पिता छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
35	62	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	0.111	सीताराम पिता छोटे जाति कीरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
36	63	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	0.183	मु0 सुमन ववो विजेन्द्र विकाश जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस
37	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.172	मु0 सुमन ववो विजेन्द्र विकाश जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस
38	65	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	0.195	लालपति रतनलाल पुत्रगण झीगुरिया स0 भाग 14/32 रामरती पुत्री झीगुरिया हि0 8/32 सानेराम पुत्र झीगुरिया दुलारे वा0 भीमसेन नाबा0 आ0 मठलू सरप0 भाई कमलेश मिथलेश अनीता आरती पुत्रियां मठलू स0 भाग 1/6 जाति काछी निवासी खरीपुरा पिस्ता देवी पत्नी गंगाधर भाग

						1/6 जाति पहार निवासी बकसपुर
39	67 /1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	0.405	सुरेश पिता जनवेद जाति कुशवाह पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
40	67 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.690		मु0 सुमन क्वो विजेन्द्र विकाश जितेन्द्र पुत्रगण विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हाल कैलारस
41	68	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.070	प्रहलाद पिता देवीसिंह जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
42	70	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.120	मातादीन अनिल विनोद पुत्रगण रामस्वरूप समान भाग जाति गौड पता नि0 ग्राम कुल्होली भूमि स्वामी
43	71	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.070	अतिराज पिता देवीसिंह जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
44	72	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.150	0.141	शान्ती बैजन्ती विसुना कलाबाई पुत्रियां बलवन्त स0 भाग जाति धाकड़ पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
45	68 /6 16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	0.070	बुद्धा रघुवर रामजी गंजन पीतम आ0 अंगद बाओ पुत्री अंगद समान भाग जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी
46	72 /6 14	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	0.243	सीताराम पिता छोटे जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल	46			22.220	9.803	

फिती

1. य यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 65-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-14327-1

मुरैना, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-स्यावटा, प0ह0क0- रा0नि0 वृत्-तहसील -कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में कुल 0.689 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-स्यावटा, प0ह0क0- रा0नि0 वृत्- तहसील- कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील कैलारस
ग. ग्राम स्यावटा
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.689 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4		5	6
1	20	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	3.24	0.022	नरोत्तम प्रसाद विशम्बर दयाल पुत्रगण देवीलाल जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
2	27/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.836	0.029	सुरेन्द्र पुत्र मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
3	27/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.0740	0.031	राकेश पुत्र मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
4	28/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.564	0.022	मुन्नालाल पुत्र राजाहम्म जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
5	33 मि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.585	0.031	विजयभास्कर पुत्र हुशम सिंह हि. 572/585, कालीबिण पुत्र लखपति हि.13/585 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी

6	33 मि.2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.585		हृदेश पुत्र रामदीन हि. 572/585, कालीचरण पुत्र लखपति हि.13/585 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
7	34/1 मि. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	0.013	विजयभास्कर पुत्र हुकमसिंह जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
8	34/1 मि. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042		हृदेश पुत्र रामदीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
9	34/1 मि. 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021		हुकमसिंह रामदीन पुत्रगण भवूतीराम हि.समान जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
10	34/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.097		हुकमसिंह रामदीन पुत्रगण भवूतीराम हि.समान जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
11	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.881	0.082	केदार पुत्र घन्सूराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
12	40/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.32	0.022	महेन्द्र पुत्र तुस्सीराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
13	40/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.324	0.015	देवीप्रसाद पुत्र तुस्सीराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
14	46/2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.45	0.045	नरेन्द्र पत्र दर्गा जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
15	46/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	0.007	रामश्री बेबा दर्गा धनवन्ती सुन्दरिया सुशीला पुत्रियां दुर्गा जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
16	47	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418	0.009	भूप सिंह पुत्र गयाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
17	59	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.523	0.016	प्रबंधक कलेक्टर मुरेना ओकाक डिपार्टमेन्ट माफी देवस्थानी
18	60/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	0.014	सुल्तान पुत्र बाबूराय जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
19	60/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	0.009	सुरेश राजेन्द्र अशोक पुत्रगण करन सिंह जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
20	61/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	0.015	शिशुपाल ना.बा पुत्र गनेशराम सर. पिता खुद जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
21	61/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	0.018	भागचन्द पुत्र बाबूराय जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
22	63/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.854	0.021	कन्हैया लाल पत्र गनेश जाति

23	63/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.853	0.022	त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी शिशुपाल पुत्र गनेशाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
24	63/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.854	0.022	प्रमोद पुत्र गनेशाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
25	64/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.272	0.006	किलोई पुत्र चरनू जाति धोबी नि. ग्राम भूमि स्वामी
26	64/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.242	0.007	कल्लू पुत्र पत्तू हि.12/242 बट्टी प्रसाद पुत्र किलोई हि.230/242 जाति धोबी नि.ग्राम भूमि स्वामी
27	64/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.242	0.008	रामलखन पुत्र पत्तू हि.116/242 जाति धोबी प्रदीप कुमार पुत्र भवूती राम हि.74/242 प्रवीण पुत्र लज्जाराम हि.52/242 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
28	65	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.617	0.016	कुअरपाल,ज्ञानेश्वर ,सियाराम पुत्रगण गिरवर लाल जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
29	66	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.108	0.025	मु. सोनो बेवा रघुवर वीरवल रामगोपाल दत्तक पुत्र रघुवर हि. 26/106 विहारी लाल पुत्र मुरलीधर हि.7/106,करनसिंह भागचन्द राजाराम सुल्तान पुत्र बाबूरार पुत्रगण बाबूराय शान्ती कलावती त्रिवेणी रामप्यारी रामश्री पुत्रिया बाबूराय,हि. 12/106,किशुनलाल पुत्र मुरलीधर हि.8/106,हरिबिलाश रामसिंह पुत्रगण राधाकिशन,मु.मुन्नी बेवा लज्जाराम श्रीकान्त पुत्र लज्जाराम ,ललिता ,मीनेश कविता पुत्रियां लज्जाराम जाति त्यागी हि.27/106 भूमि स्वामी भागीरथ ,विशम्भर ,रामहेत दामोदर,सोनेराम पुत्रगण ब्रखभान ,रामबेटी पुत्री ब्रखभान रूकमा बेवा ब्रखभान हि. 7/8 समान उमेश सतीश पुत्रगण कन्हैया लाल ,निर्मला पुत्री कन्हैया लाल ,रामदेई बेवा कन्हैया लाल हि.1/8 समान जाति त्यागी दर हि.14/106 रूपचन्द्र पुत्र

						मुरलीधर जाति त्यागी हि.9/106 10 विश्वांशी भव्तीराम पुत्र नेतराम जाति त्यागी नि.ग्राम हि. 2/106 जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
30	68	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.024	0.074	केदार पुत्र घन्सूराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
31	70/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	0.005	बृन्दावन, राकेश सुरेन्द्र पुत्रगण मातादीन, शारदा पुत्री मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
32	70/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	0.006	मुरारी पुत्र राजाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी
33	70/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	0.005	रमेशचन्द्र उर्फ रामेश्वर, रामप्रकाश पुत्रगण रघुनाथप्रसाद जाति त्यागी नि.ग्राम भूमिस्वामी,
34	70/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.221	0.013	रघुवीर प्रसाद पुत्र मूलाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
35	70/8	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	0.003	बसन्ती बेवा अमर सिंह रामबरन बा.योगेश ना.बा. पुत्रगण अमर सिंह मीरा मनोज, गुडिया बा. पिन्की ना.बा. पुत्रियां अमर सिंह सर.मों खुद हि.108/160 जाति त्यागी धर्मवीर प्रमोद राधेश्याम पुत्रगण देवीराम कान्ता देवी बेवा देवीराम ममता ललिता सविता बनिता पुत्रियां देवीराम जाति ब्राह्मण हि. 42/160 समान भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी
36	70/9	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.221	0.012	भव्तीराम पुत्र मूलाराम जाति त्यागी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
37	70/10	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.108	0.006	बसन्ती बेवा अमर सिंह रामबरन बा.योगेश ना.बा. पुत्रगण अमर सिंह मीरा मनोज, गुडिया बा. पिन्की ना.बा. पुत्रियां अमर सिंह सर.मों खुद हि.108/160 जाति त्यागी धर्मवीर प्रमोद राधेश्याम पुत्रगण देवीराम कान्ता देवी बेवा देवीराम ममता ललिता सविता बनिता पुत्रियां देवीराम जाति ब्राह्मण हि. 42/160 समान भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी

38	70/11	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	0.007	बृन्दावन, राकेश सुरेन्द्र पुत्रगण मातादीन, शारदा पुत्री मातादीन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
39	70/12	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.108	0.006	रमेश उर्फ रामेश्वर, रामप्रकाश पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
40	70/14	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	0.006	राजेन्द्र पुत्र राजाराम जाति त्यागी नि. ग्राम भूमि स्वामी
41	70/16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.057	0.003	राघवेन्द्र, राजेश पुत्रगण कालीचरन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
42	70/17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	0.003	देवेन्द्र, विनोद पुत्रगण कालीचरन जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
43	72/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.23	0.006	रघुवीर प्रसाद पुत्र भूलाराम जाति त्यागी नि.ग्राम भूमि स्वामी
44	73	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	0.007	मु. शान्ती बेबा अंगद बन्टी पुत्र अगद, शकुन्तला पुत्री अंगद हि. 3/8 लोंगश्री बेबा बीरेन्द्र, सूरज पुत्र बीरेन्द्र राधाकृष्णा, पूनम पुत्रियां बीरेन्द्र हि.1/8 समान जाति धोबी बैजन्ती पुत्री रामचन्द्र जाति धोबी नि.ग्राम भूमिस्वामी हि. 1/2 भू दान से कृषक
कुल किता	44				0.689	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 67-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-14327-2

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-तोरिका, प0ह0क0- रा0नि0 वृत्-तहसील -कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में कुल 4.615 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-तोरिका, प0ह0क0- रा0नि0 वृत्-तहसील- कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील कैलारस
ग. ग्राम तोरिका
घ. लगभग क्षेत्रफल 4.615 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4		5	6
1	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	0.053	मुन्नालाल पुत्र रामजीलाल जाति त्यागी मंगलप्रसाद बाबूलाल पिता छीतरिया सुमित्रा पुत्री छीतरिया पता निवासी शेखपुर समान भाग भूमिस्वामी
2	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.960	0.180	रघुनाथ पिता भगवानलाल पता निवासी शेखपुर भूमिस्वामी
3	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.900	0.094	सामन्तसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति धाकड़ पता नि0 भूमिस्वामी
4	185	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	0.139	राजेन्द्र सामन्तसिंह नाबा0 सर0 पिता सामन्तसिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति धाकड़ नि0 ग्राम हि0 2/3 समान मु0 कलावती बेवा लालाराम महेश पुत्र लालाराम नाबा0 ज्ञानवती रामवती शकुन्तला अखलेश पुत्रियां लालाराम नाबा0 सर0 कलावती मां खुद हि0 1/3 समान जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

5	186	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.030	0.020	मु0 रामकटोरी बेवा लोडू ओमप्रकाश पु. लोडू कमलेश सुनीता मनीता पुत्री लोडू जाति कोरी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
6	188	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.730	0.194	प्रहलाद श्यामलाल पुत्रगण ग्यासिया हि0 81/433 समान मुरारी अमरसिंह पुत्रगण ग्यासिया रामदुलारी पुत्री ग्यासिया हि. 3/8 समान प्रहलाद श्यामलाल मुरारी अमरसिंह पुत्रगण ग्यासिया रामदुलारी पुत्री ग्यासिया हि0 289/433 समान जाति धाकड़ शीलादेवी पत्नी रामप्रकाश जाति राठोर पता नि0 ग्राम 63/433 भाग भूमिस्वामी
7	195	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.750	0.025	परसोत्तम नवल सिंह पुत्र पुत्र ब्रखु जाति कोली निवासी शेखपुर मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि0 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा0कलिया नाबा0 पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि0 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि0 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	196	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	0.068	परसोत्तम नवल सिंह पुत्र पुत्र ब्रखु जाति कोली निवासी शेखपुर मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि0 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शेलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा0कलिया नाबा0 पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि0 22/294 समान जुमला हि0 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि0 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9	198	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	0.027	परसोत्तम नवल सिंह पुत्र पुत्र ब्रखु जाति कोली निवासी शेखपुर मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि0 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह

						पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा०कलिया नाबा० पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि० 22/294 समान जुमला हि० 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि० 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10	199	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	0.026	परसोत्तम नवल सिंह पुत्र पुत्र ब्रखु जाति कोली निवासी शेखपुर मुन्नी बसन्ती पुत्रियां मंगला हि० 3/8 समान सुरेन्द्र श्रीनिवास ज्ञानसिंह पुत्रगण सोना रामश्री पुत्री सोना 86/294 समान शलेन्द्र पुत्र सुरेश, मीना ममता बा०कलिया नाबा० पिता सुरेश, मुन्नी बेवा सुरेश हि० 22/294 समान जुमला हि० 3/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायण प्रहलाद पुत्रगण गनपति, नारायणी पुत्री गनपति हि० 1/4 समान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11	228	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.042	सुशीला गीता पुत्रियां भोगीराम हि० 5/6 समान श्रीनिवास, प्रदीप, रामलखन पुत्रगण धनीराम शकुन्तला अनीता पुत्रीयां धनीराम बैकुण्ठी वेवा धनीराम जाति त्यागी पता नि० ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी
12	235	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.660	0.105	रमेश चन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण हि.5/66 नि.कैलारस लीला पत्नी रामेश्वर नर्मदा पत्नी रामनाथ हि.11/66 मनीषा पत्नी जानकीप्रसाद ,अशोक उर्फ अरुण पुत्र लज्जाराम हि.45/66 समान जाति त्यागी बलवीर पुत्र रामसिंह जाति धाकड हि.1/2 लक्ष्मीनारायण, जितेन्द्र पुत्रगण दर्शनलाल हि.1/2 दर हि.5/66 जाति शाक्य नि.ग्राम भूमि स्वामी
13	237	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	0.033	रमेशचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम कैलारस भूमिस्वामी
14	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.024	रमेशचन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम कैलारस भूमिस्वामी

15	245	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	0.038	महाराजसिंह पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
16	271/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	0.018	दाताराम पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
17	271/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.006	कृपाराम पुत्र जनवेद जाति धाकड़
18	271/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	0.010	महाराजसिंह पुत्र जनबेद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
19	272	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.000	0.153	मुन्शीलाल पुत्र नारायणलाल जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार भूमि बिक्रय से बर्जित
20	273	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.000	0.106	लक्ष्मी बेवा सुरेशचन्द्र जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी भूमि बिक्रय से बर्जित
21	274	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.000	0.157	मु० मायादेवी बेवा बांकेलाल जाति वैश्य पता नि० कैलारस शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी
22	303	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.750	0.448	हरिचरण पुत्र जनार्दन जाति ब्राह्मण पजा नि० जौरा भू-दान कृषक
23	309	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.020	1.020	हरिचरण पुत्र जनार्दन जाति ब्राह्मण पजा नि० जौरा भू-दान कृषक
24	308	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.970	1.629	मंदिर पुक्ता श्री लक्ष्मीनारायण जी बांके ग्राम सुजर्मा प्रबंधक कलेक्टर मुरैना शासकीय पट्टेदार
कुल कित्ता	24			18.110	4.615	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।?

विषय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 76-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-18-मांगरोल-1-14123

मुरैना, दिनांक 30 नवम्बर 2019

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- मांगरोल, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.582 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- मांगरोल प.ह.नं-32, रा.नि. वृत्- 02 में उक्त परियोजना के लिये 1.582 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	1724	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.056	मुंशी पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति बाढई पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
2	1742	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	नर्मदा बेबा हरिनन्दन रामदीन जगदीश रामनिवास हरिओम अखिलेश पुत्रगण हरिनंदन स.भाग 1/2 जा रावत रामदयाल पुत्र रामभजन भाग 1/2 जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
3	2120	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुड़डी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयों मदनू स. भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
4	2121	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.067	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुड़डी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयों मदनू स. भाग 1/2 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
5	2122	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	रामजीलाल जगदीश पुत्र बसन्ता कंचन बेबा बसन्ता स.भाग 1/2 प्रथ्वीराज टकमोद सोवरन सुल्तान पुत्रगण महीपति राजश्री बेबा महीपति कमला शकुन्तला श्रीया पुत्रीयों महीपति मुल्लो बेबा भन्ता स.भाग 1/4 पार्वती बेबा बीरबल राजेन्द्र नरेश

					ऋषिकेश पुत्रगण बीरबल स. भाग 1/4 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
6	2123	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.082	रामस्वरूप अमरसिंह पुत्रगण चिरोजी ल्होई त्रिवेणी पुत्रीयों चिरोजी स.भाग जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
7	2124	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.045	रामजीलाल जगदीश पुत्र बसन्ता कंचन बेबा बसन्ता स.भाग 1/2 प्रथ्वीराज कम्मोद सोवरन सुल्तान पुत्रगण महीपति राजश्री बेबा महीपति कमला शकुन्तला श्रीया पुत्रीयों महीपति मुल्लो बेबा भन्ता स.भाग 1/4 पार्वती बेबा बीरबल राजेन्द्र नरेश ऋषिकेश पुत्रगण बीरबल स. भाग 1/4 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
8	2125	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	चन्दन पत्नी श्रीपति भाग 1/2 रामस्वरूप बा. अमरसिंह नाबा. पुत्र चिरोजीलाल सर. पिता खुद समान भाग हि. 1/4 हरिनन्दन बाबूलाल रघुपति पुत्रगण मुकन्दी समानल भाग हि. 1/4 जाति रावत पता नि. ग्राम भूमिस्वामी।
9	2126	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	रामसिंह पुत्र बाबूलाल भाग 56/337 सुआ पत्नी बाबूलाल भाग 168/337 दर भाग 2/3 हरेत रामहेता पुत्र जनवेद स. भाग 1/6 निर्मल वृजेन्द्र बा. रामकुमार नाबा. पुत्रगण रामस्वरूप नाबा. सर. भाई खुद रामलता पुत्री रामस्वरूप स. भाग 4/5 सुनीता बेवा सीताराम कल्पना नाबा. पुत्री सीताराम नाबा. सर. माँ खुद स. भाग 1/5 दर भाग 1/12 मुशरी पुत्र रघू बैकुन्ती पुत्री रघू स. भाग 1/12 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
10	2133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	किन्ती जोजे मुकन्दी जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	2136	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.144	बूदीलाल पुत्र हरिविलास इमरती रामश्री लीला बादामी पुत्रीयों हरिविलास स.भाग 5/7 पुष्पा बेबा केदारलाल शंकर दीप दिलीप पुत्रगण केदारलाल शशी रीना पुत्रीयों केदारलाल स. भाग 1/7 अरुणवीर पुत्र रामजीलाल प्रयाग रामवती सुनीता ममता पुत्रीयों रामजीलाल स. भाग 1/7 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
12	2146	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	बीरसिंह पुत्र रामनाथ कलिया दवारिका पुत्रीयों रामनाथ बादामी बेबा रामनाथ रामरती बेबा कल्लू धीरज आशाराम नाबा. पुत्रगण कल्लू सर. माँ खुद स.भाग 1/4

					बीरबल पुत्र गिरवर भागवती पुत्री गिरवर स.भाग 2/4 देवलीया बेबा सुमेर रणवीर पुत्र सुमेर भीना पुत्री सुमेर स. भाग 1/4 जा.रावत नि. गाम भूमिस्वामी।
13	2147	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	बूदीलाल पुत्र हरिविलास इमरती रामश्री लीला बादामी पुत्रीयाँ हरिविलास स.भाग 5/7 पुष्पा बेबा केदारलाल शंकर दीप दिलीप पुत्रगण केदारलाल शशी रीना पुत्रीयाँ केदारलाल स. भाग 1/7 अरुणवीर पुत्र रामजीलाल प्रयाग रामवती सुनीता ममता पुत्रीयाँ रामजीलाल स. भाग 1/7 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
14	2149	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.121	राजीवकुमार पुत्र किरोडीलाल जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
15	2150	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	सामन्त पुत्र कुअरचंद कस्तूरी पुत्री कुअरचंद स.भाग जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
16	2168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	चिरोजीलाल अमरलाल पुत्र श्रीकिशन किन्ती पुत्री श्रीकिशन स. भाग 3/4 प्रतापसिंह भूपेन्द्रसिंह पुत्र लटूर ल्होईबाई बेबा लटूर स. भाग 1/4 जाति रावत पता नि० ग्राम।
17	2169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.179	रामस्वरूप रामहेत हरेत पुत्रगण जनवेद स. भाग 3/4 मुरारी पुत्र रघू बैकुण्डी पुत्री रघू स.भाग 1/4 जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
18	2170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	शंकर दीप दिलीप पुत्रगण केदारलाल पुष्पा बेबा केदारलाल शशी रीना पुत्रीयाँ केदारलाल स.भाग जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
19	2173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.057	बूदीलाल पुत्र हरिविलास जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
20	2174	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.331	बूदीलाल पुत्र हरिविलास जा.रावत नि.ग्राम
21	2175	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.019	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुड्डी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयाँ मदनू स. भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
22	2176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	महराजसिंह कल्याणसिंह हाकिमसिंह पुत्रगण भगवनलाल रेवती गिरपती रामपती पुत्रीयाँ भगवनलाल स. भाग जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
23	2177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुड्डी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री

					प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयाँ मदनू स. भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
24	2179	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.012	बैजन्ती बेबा जगदीश फेरन मुन्ना पुत्रगण जगदीश गुड्डी पुत्री जगदीश रामश्री पुत्री प्रहलाद स.भाग 1/2 कलावती बेबा मदनू नरेश बारेलाल पुत्रगण मदनू कामिनी कमला उम्मेदी पुत्रीयाँ मदनू स. भाग 1/2 जा.रावत नि.ग्राम भूमिस्वामी।
25	2180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	महाराजसिंह कल्याणसिंह हाकिमसिंह पुत्रगण भगवनलाल रेवती गिरपती रामपती पुत्रीयाँ भगवनलाल स. भाग जा.रावत नि. ग्राम भूमिस्वामी।
26	2182	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016	सन्तोशी ब्रजमोहन पुत्रगण गंगाधर शीला सरोज कमला पुत्रीयाँ गंगाधर स. भाग 1/2 रामबाबू पुत्र रामलाल भाग 1/2 जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
27	2183	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	नर्मदा बेबा हरिनन्दन रामदीन जगदीश रामनिवास हरिओम अखिलेश पुत्रगण हरिनंदन स. भाग 1/2 जा. रावत रामदयाल पुत्र हरिभजन भाग 1/2 जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
28	2184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	बैजन्ती पुत्री भागीराम जा. ब्रा. नि. ग्राम भूमिस्वामी।
	कुल/कुल 28			1.582	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अम्बुदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

टिप्पणी :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

“प्रारूप-V”

सं 222

शिवपुरी, दिनांक 30 नवम्बर 2019

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ सिलपुरा ग्राम. खनियाधाना तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल. 12.094 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. अर्थात्, :

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 12.094 हेक्टेयर है जो ग्राम सिलपुरा तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) खनियाधाना जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	पेड संरचनाओं आदि का ब्यौरा		
							किस्म	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	9		
	376	भू-स्वामी	सिंचित	1.36	0.380	उदयसिंह साकुलाल प्रकाश सोभाग्यसिंह पुत्रगण हरनामसिंह 4/15 सावित्री वेवा			
	535			1.15	0.070	विशालसिंह गजेन्द्रसिंह अजवसिंह पुत्रगण विशालसिंह शान्ती मल्लो पुत्री			
1	537			1.43	0.400	विशालसिंह 1/15 रामश्री पति विशालसिंह कुशमा पति प्रकाश 5/9 म. नीलम पति अजवसिंह गजेन्द्रसिंह पुत्र विशालसिंह 2/9 जाति यादव			
2	373	भू-स्वामी	सिंचित	0.85	0.220	रामचरन पुत्र परसू जाति गडरिया			
	364			0.41	0.120				
	372			0.59	0.010				
	368			0.64	0.210				
	363			0.62	0.020				
3	348	भू-स्वामी	सिंचित	1.72	0.070	रामेश्वर सजय पुत्र देवीसिंह रामकुंवर कलावती पुत्री देवीसिंह 1/3 प्रतापसिंह बादामसिंह पुत्रगण मेहरवान 2/3 जाति यादव	कुआ कच्चा	1	
4	367	भू-स्वामी	सिंचित	0.43	0.210	विजयसिंह पुत्र रघुवरसिंह जाति यादव 1/2 खलकसिंह पुत्र रघुवरसिंह जाति यादव 1/2			
5	366	भू-स्वामी	सिंचित	0.75	0.040	मानसिंह मुकेश पुत्र रमा फूलवती पति मानसिंह रामदेवी पति मुकेश जाति चमार			

6	550 542	भू-स्वामी	सिद्धित	1.67 0.50	0.150 0.150	सोहनसिंह श्रीराम गिरवरसिंह पुत्रगण सिरनामसिंह धनकुंवर सेवकुंवर देवकुंवर पुत्री सिरनामसिंह 6/7 शांतिबाई देवा हनुमंतसिंह वाघराज हुकुमसिंह सुखबीरसिंह पुत्रगण हनुमंतसिंह लीलाबाई जयकुंवर वा. राधा नावा. पुत्रीगण हनुमंतसिंह 1/7 जाति यादव			
7	549	भू-स्वामी	सिद्धित	2.87	0.580	सावित्री बेबा विशालसिंह राजेन्द्रसिंह अजवसिंह पुत्र विशालसिंह शांति मल्लो पुत्री विशालसिंह 1/3 उदयसिंह साकुलाल पुत्रगण हरखानसिंह 2/3 जाति यादव			
8	541	भू-स्वामी	सिद्धित	1.37	0.210	उदयसिंह 19/48 साकुलाल 1/12 सोभागसिंह 5/16 प्रकाश 1/16 पुत्रगण हरखानसिंह मु. सावित्री बेबा विशालसिंह 19/240 गजेन्द्रसिंह अजवसिंह पुत्र विशालसिंह शांति मल्लो पुत्री विशालसिंह 1/15 जाति यादव			
9	532 540	भू-स्वामी	सिद्धित	0.25 0.10	0.020 0.030	उदयसिंह 19/48 साकुलाल 1/12 सोभागसिंह 5/16 प्रकाश 1/16 पुत्रगण हरखानसिंह मु. सावित्री बेबा विशालसिंह 19/240 गजेन्द्रसिंह अजवसिंह पुत्र विशालसिंह शांति मल्लो पुत्री विशालसिंह 1/15 जाति यादव	कुआ कच्चा	1	
10	639 640/1	भू-स्वामी	सिद्धित	1.57 0.76	0.220 0.430	बीरसिंह पुत्र इमरतसिंह जाति यादव 177/355 कोकसिंह पुत्र इमरतसिंह जाति यादव 138/355 सावित्री पत्नि वीरसिंह जाति यादव 40/355			
11	624	भू-स्वामी	सिद्धित	1.03	0.020	रज्जीबाई पति हरखानसिंह जाति यादव			
12	620 622	भू-स्वामी	सिद्धित	1.36 1.99	0.310 0.650	कोकसिंह मलखानसिंह वल्लू खिल्लू पुत्रगण सोहनसिंह जाति यादव 4/60 राजकुमारी पुत्री सोहनसिंह जाति यादव 1/60 दिरो देवा सोहनसिंह जाति यादव 1/60 कमलसिंह पुत्र रतनसिंह जाति यादव 11/60 मलूक पुत्र कमलसिंह जाति यादव 1/40 अंशुल नावा. पुत्र कमलसिंह सर पिता जाति यादव 1/40 दिरो देवा सोहनसिंह जाति यादव 1/2 भीरबाई पत्नि कमलसिंह 7/60 म. शारदा पत्नि मलखानसिंह जाति यादव 1/40 रणवीरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति यादव 1/40	कुआ कच्चा	1	
13	1906	भू-स्वामी	सिद्धित	0.35	0.002	चन्दनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति यादव 19/144 कमलसिंह पुत्र भीमसिंह जाति यादव 19/144 शिवराजसिंह पुत्र भीमसिंह जाति यादव 19/144 सीताराम पुत्र भीमसिंह जाति यादव 19/144 भावना पत्नि अवधेश जाति यादव 1/12 रावराजा पुत्र लालसिंह जाति यादव 1/12 राजेशसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति यादव 1/48 कृष्णसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति यादव 1/48 बीरेन्द्रप्रतापसिंह पुत्र रामरतन जाति यादव 11/72 रुद्रप्रतापसिंह नावा. पुत्र कृष्णपालसिंह सर पिता जाति यादव 1/9			
14	1916 1900 1905	भू-स्वामी	सिद्धित	1.76 2.96 1.20	0.420 0.910 0.460	मु. सुनिया देवा कुन्जा जुझार पुत्र कुन्जा 1/3 हरूआ पुत्र जकरा रामसेवक पुत्र पन्ना मु. ग्यासी देवा पुन्ना 1/3 हरदीना पुत्र पतुआ 1/6 बाघराज धीरजसिंह पुत्रगण पूरन 1/6 जाति सेहर			
15	1915	भू-स्वामी	सिद्धित	2.17	0.720	हरदा पुत्र मल्लुआ मुलिया धनिया मखनिया पुत्री मल्लुआ जाति सेहर	कुआ कच्चा	1	

N/AE

2001 2002	मू-स्वामी	सिद्धित	1.07 0.20	0.370 0.090	रचना पत्नि रामचन्द्र जाति शर्मा 1/36 पूजा पत्नि कृष्णचन्द्र जाति शर्मा 1/36 आशा पत्नी शैलेन्द्र जाति शर्मा 1/36 अशोककुमार शिवकुमार बीरेन्द्र पुत्रगण बासुदेवप्रसाद जाति शर्मा 1/12 मु. पार्वती बेवा वसुदेवप्रसाद जाति शर्मा 1/36 गोपीलाल पुत्र रघुवरदयाल जाति शर्मा 1/9 अनलकुमार पुत्र सम्भूदयाल जाति शर्मा 1/6 मु. राजवती बेवा हरमजन जाति शर्मा 1/30 राजकुमार कृष्णकुमार सुनीलकुमार पुत्रगण हरमजन जाति शर्मा 1/10 उषादेवी पुत्री हरमजन जाति शर्मा 1/30 अम्मा बेवा शीतलप्रसाद जाति शर्मा 1/27 धर्मन्द्र आशीष पुत्र शीतलप्रसाद जाति शर्मा 2/27 ललितकिशोरी पत्नि रामकिशोर जाति शर्मा 1/24 सुमन पत्नि देवेन्द्र जाति शर्मा 1/24 कृष्णचन्द्र पुत्र काळूराम जाति शर्मा 1/36 सत्येन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति शर्मा 1/36 राधावल्लभ नावा. पुत्र शैलेन्द्र सर माता आशादेवी जाति शर्मा 1/36 जगदीशप्रसाद पुत्र बैजनाथ जाति शर्मा 1/12	कुआ कच्चा	1	
17 - 2004	मू-स्वामी	सिद्धित	1.82	0.440	सुम्ना पुत्र कन्हैया जाति गडरिया			
2005/1	मू-स्वामी	सिद्धित	3.31	0.110	गोपीलाल पुत्र रघुवरदयाल 1/3 पार्वती बेवा बासुदेवप्रसाद अशोककुमार शिवकुमार बीरेन्द्रकुमार पुत्रगण बासुदेवप्रसाद 1/3 अम्मा बेवा शीतलप्रसाद धर्मन्द्रकुमार आशीषकुमार पुत्रगण शीतलप्रसाद जाति ब्राह्मण 1/3			
2009/1 1904/1	मू-स्वामी	असिद्धित	1.7 0.58	0.500 0.190	सुम्मा दलीपा करन पुत्र हरसीगा जाति सेहर			
2025 2026 2108 2111	मू-स्वामी	सिद्धित	1.57 1.28 0.49 0.82	0.530 0.002 0.020 0.260	पूरन पुत्र दलुबा तखतिया देवकिया पुत्रिया सुक्का उदवा पुत्र श्यामा रामसिंह कल्ला पुत्र रत्ना जाति सेहर			
2109	मू-स्वामी	सिद्धित	0.34	0.040	कोमल पुत्र ललचू फुलिया बेवा हरवानसिंह 1/4 मु. गोरिया बेवा मुन्न करन पुत्र तोरन रम्पी बेवा तोरन 1/2 जाति सेहर			

2115	भू-स्वामी	सिंचित	6.47	0.970	मन्थाराम वृजेश कल्याणसिंह सोरेश्वर पुत्र पंचमसिंह 61/1631 ब्रामान उदरमान जनकोसिंह पुत्रगण पुत्रसिंह 41/1631 विजयसिंह सरदारसिंह हुमनसिंह रघुवीरसिंह पुत्रगण रामदयाल 65/1631 कोकसिंह मलखान बच्चू खिल्लू पुत्र सोहनसिंह 23/1631 मु. दिरो बेवा सोहनसिंह 6/1631 राजकुमारी पुत्री सोहनसिंह 6/1631 बाबूलाल भागीरथ बिक्रम पुत्रगण नाथूराम 25/1631 सीता पुत्री रामदयाल 16/1631 साहवसिंह ब्रजमानसिंह कोकसिंह पुत्रगण श्रीपत 49/1631 कमला रघुवी पुत्री श्रीपत 33/1631 संतोकासिंह शिशुपालसिंह मुकेशकुमार पुत्रगण सुरतसिंह बालकुर पुत्री प्रभु 20/1631 गजराजसिंह विशालसिंह शंकरसिंह राजेशकुमार पुत्रगण सुरतसिंह 140/1631 अजबबाई गीताबाई पुत्री सुरतसिंह 70/1631 रघुवीरसिंह पीतमसिंह पुत्रगण अर्जुनसिंह 68/1631 शतीबाई बेवा नारायणसिंह 6/1631 अमोलसिंह सिराम रामसिंह पुत्रगण नारायणसिंह 17/1631 संतोकासिंह पुत्र भगवानसिंह 10/1631 राजपालसिंह पुत्र गजराजसिंह 11/1631 लालसिंह पुत्र सुरतसिंह 48/1631 नन्दकुर पुत्रगण शोवरसिंह 17/1631 फुलकुर पुत्री शोवरसिंह 8/1631 गोविन्दसिंह बालकेशन पुत्रगण शोवरसिंह 13/1631 मु. मूरी बेवा सोवन्सिंह 8/1631 वीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह 13/1631 भागे पुत्री प्रतापसिंह 13/1631 परतसिंह बादलसिंह राजेन्द्रसिंह पुत्रगण आशाराम 87/1631 गुडडी कैलाश पुखन कलो पुत्री आशाराम 116/1631 मशाराम पुत्र पंचमसिंह 25/1631 अकलकुर बेवा जगतसिंह संतोकासिंह अशोकसिंह पुत्रगण जगतसिंह गुडडीबाई जयकुर नंदकुर बबीता पुत्री जगतसिंह 34/1631 किलोसिंह पुत्रगण पहलवानसिंह 57/1631 केशर पुत्री पहलवानसिंह 28/1631 त्रिलोकसिंह मानसिंह पुत्रगण राजाराम 34/1631 चंदनसिंह रामसिंह पुत्रगण पीतमसिंह 64/1631 शालिकराम रामलखन पुत्रगण कलू 20/1631 यन्श्याम पुत्र वशिया 20/1631 राजवती पति रामरतन 41/1631 विन्ना पति खुमान 25/1631 अजबसिंह उधमसिंह पुत्रगण कोमलसिंह 8/1631 नन्हीबाई बेवा कोमलसिंह 4/1631 सावित्री प्रेम पुत्री कोमलसिंह 8/1631 रणवीरसिंह पुत्र अनारसिंह 51/1631 साबूलाल प्रकाश शोभासिंह पुत्रगण हरवानसिंह 19/1631 सावित्रीबाई बेवा विशालसिंह 1/1631 राजेन्द्रसिंह अजबसिंह पुत्रगण विशालसिंह 2/1631 शांति मल्लो पुत्री विशालसिंह 2/1631 मु. अबधबाई बेवा पंचमसिंह 20/1631 कमलेश उषा पुत्री पंचमसिंह 41/1631 कल्याणसिंह भगवानसिंह पुत्रगण गोविन्दसिंह 13/1631 सरम लछमन गज्जू पुत्रगण सिरनामसिंह 20/1631 संग्रामसिंह पुत्र अतरसिंह 6/1631 मु. लाडकुर बेवा सियाराम 4/1631 गोमती पुत्री सियाराम 4/1631 शंकरसिंह पुत्र सियाराम 4/1631 फुलाबाई सम्पत पुत्री पेलसिंह 27/1631	
22					कुआ पक्का कुआ कच्चा	1 1
23	भू-स्वामी	सिंचित	2.12	0.230	कमला गनेशा लखन पुत्रगण पर्वता जाति सेहर	
	कुल कित्ता -45	कुल रकवा		12.094		

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निम्न है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ कुम्हरा ग्राम खनियाधाना तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 12.84 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्, ।
इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक मू-खंड है, जो 12.84 हेक्टेयर है जो ग्राम कुम्हरा तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) खनियाधाना जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	पेड संरचनाओ आदि का ब्यौरा			
							किस्म	संख्या	प्रकार	
1	2	3	4	5	6	7	9			
1	1154/1	मू-स्वामी	सिंचित	0.080	0.08	जाहरसिंह पुत्र झडुआ जाति चमार				
2	1154/2	मू-स्वामी	सिंचित	0.23	0.22	हिरदेशकुमार विनोदकुमार पुत्रगण राजनसिंह जाति यादव				
	1137			1.52	0.54					
3	1153	मू-स्वामी	सिंचित	3.2	0.65	रामेश्वरदयाल राघवेन्द्र पुत्रगण जगदीशसिंह वती वेवा जगदीशसिंह जाति यादव	कुआ कच्चा	1		
4	1155	मू-स्वामी	सिंचित		0.02	श्यामा धर्मा मलधुवा चैना पुत्रगण सुम्मा हि. 1/4 चमार हिरदेशकुमार विनोदकुमार पुत्रगण राजनसिंह यादव हि. 3/4				
5	1138	मू-स्वामी	सिंचित	1.78	0.31	बलवीर पुत्र वृत्तमान गुडडी पुत्री वृत्तमान जाति यादव				
6	1120	मू-स्वामी	सिंचित	1.45	0.44	रघुवीरसिंह पुत्र सूरतसिंह यादव				
	1119			7.50	1.03					
	678			0.28	0.01		कुआ कच्चा	1		
7	679	मू-स्वामी	सिंचित	0.32	0.21	शालिगराम गिस्वर ऊधमसिंह पुत्रगण श्रीपत जाति यादव				
	683/2			0.50	0.11					
8	680	मू-स्वामी	सिंचित	0.27	0.17	हरवान लालाराम सत्तोकासिंह त्रिलोक सिंह पुत्रगण भग्गा हि. 4/5 मु. फूलवती वेवा अमोलसिंह भरतसिंह व. पहलवान नावा. पुत्रगण अमोलसिंह सुशीला ब. अनीता नावा. पुत्रीगण मोलससिंह हि. 1/5 जाति यादव				
	682			0.35	0.17					
	683/1			0.10	0.05					

9	615 617 614 1159/607	भू-स्वामी	सिद्धि	0.04 0.04 0.13 0.04	0.04 0.03 0.09 0.01	बलवीर पुत्र वृद्धमान गुडडी पुत्री वृद्धमान जाति यादव 1/4 सियाराम पुत्र सिरनाम जाति यादव 1/4 अवधिया पुत्री सिरनाम 1/4 सुमन्त नावा. पुत्र शिवचरण सर पिता शिवचरण सुखदेव नावा. पुत्र श्रीराम सियाराम सर. पिता खुद दिनेश पुत्र सियाराम 1/8 अमित रमित नावा. पुत्र बलवीर सर. माँ अनीता 1/8			
10	616 618 613 612 608	भू-स्वामी	असिद्धि असिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि	0.02 0.02 0.09 0.05 0.17	0.02 0.02 0.06 0.04 0.16	म. मुन्नी पत्नि नंदराम जाति लोधी	कुआ पक्का	1	
11	607 609 605 601 604	भू-स्वामी	सिद्धि	0.25 0.04 0.18 0.27 0.39	0.08 0.02 0.11 0.16 0.05	पारेलाल पुत्र मुतिया गिरजा कस्तूरी पुत्रीगण मुतिया 1/2 खुमना हिम्मत बलदेवा पुत्रीगण कलुवा विनिया देवा कलुवा पारवती कस्तूरी पुत्रीगण कलुवा 1/2 देवी	कुआ पक्का	1	
12	600	भू-स्वामी	असिद्धि	0.35	0.27	संग्राम मिहीलाल शालिगराम लख्खी राधेजाल पुत्रगण संजम गीता सरुषी पुत्री संजम 7/30 रामप्रसाद पुत्र खूली 7/30 कोमल पुत्र खूली 7/30 गिरजा कस्तूरी पुत्री मुतिया 3/10			
13	598	भू-स्वामी	सिद्धि	0.25	0.06	मालती पत्नि जयकुमार निधि नेन्सी पुत्रीगण जयकुमार आशीश पुत्र जयकुमार जाति जैन			
14	597	भू-स्वामी	सिद्धि	1.15	0.35	नन्दलाल किशनलाल पुत्र सोपत जाति लोधी			
15	591/2	भू-स्वामी	सिद्धि	0.33	0.06	मु. रघिया देवा जलमा सुल्तान गोरलाल पुत्रगण जलमा हि. 1/2 मंगलिया पुत्र दमरुआ हि. 1/2 जाति कारी			
17	591/1	भू-स्वामी	सिद्धि	0.73	0.03	मु. रघिया देवा जलमा सुल्तान गोरलाल पुत्रगण जलमा			
18	520 555 551 530 532 535 508 506	भू-स्वामी	सिद्धि	0.07 0.12 0.10 0.20 0.01 0.10 0.28 1.66	0.03 0.15 0.10 0.02 0.01 0.01 0.17 0.02	राजकुमार प्रकाशचन्द्र जयकुमार सन्तोष वीरेंद्र पुत्रगण भैयालाल मंजू सिलोचना संगीता पुत्रिया भैय जाति जैन			

19	525 528 533 534 553	भू-स्वामी	सिद्धित	0.09 0.16 0.08 0.08 0.04	0.07 0.07 0.07 0.03 0.04	प्रीतमसिंह काशीराम पुत्रगण मेवालाल जाति यादव				
20	526 579 578 556	भू-स्वामी	सिद्धित	0.09 0.17 0.13 0.80	0.09 0.14 0.01 0.07	सेवराज पुत्र मोहनलाल जाति लोधी 1/6 रमेश रुपसिंह अनरतसिंह पुत्रगण मानसिंह जाति लोधी 1/6 रामनिवास रामसेवक पुत्रगण हरदेव जाति लोधी 1/6 सेवराज रामदास वावूलाल पुत्रगण मूलचन्द्र जाति लुहार 1/2				
21	580/2	भू-स्वामी	सिद्धित	0.05	0.01	पातीराम पुत्र मंगलिया जाति कोली				
22	527 554 538 537 529	भू-स्वामी	सिद्धित	0.31 0.12 0.20 0.10 0.24	0.12 0.15 0.03 0.08 0.07	प्रीतमसिंह पुत्रगण मेवालाल जाति यादव				
23	552 531	भू-स्वामी	सिद्धित	0.07 0.01	0.07 0.01	रामेश्वरदयाल राघवेन्द्र पुत्रगण जगदीशसिंह वती वेवा जगदीशसिंह 1/12 पीतमसिंह वा.काशीराम नावा. पुत्रगण मेवालाल सर पिता मेवालाल 1/6 वलवीर देवेन्द्र पुत्र पंचमसिंह गुडडी पुत्री पंचमसिंह मु. रामकली वेवा पंचमसिंह 1/4 जीवनलाल पुत्र मोहना 1/4 राजकुमार प्रकाशचंद जयकुमार सतीष कुमार वीरेन्द्रकुमार पुत्र भैयालाल मंजू तिलोचना संगीता पुत्रीगण भैयालाल जाति जैन 1/4			कुआ पक्का	1
24	550	भू-स्वामी	सिद्धित	0.24	0.02	रामेश्वरदयाल राघवेन्द्र पुत्रगण जगदीश सिंह वती वेवा जगदीशसिंह				
24	507 435	भू-स्वामी	सिद्धित	0.10 0.60	0.08 0.07	रामेश्वरदयाल राघवेन्द्र पुत्रगण जगदीश सिंह				
25	438	भू-स्वामी	सिद्धित	1.04	0.38	आशाराम हरवान पुत्र रमला मोहनलाल पुत्र महारामसिंह 9/10 मुलायमसिंह महेशकुमार पुत्रगण विक्रमसिंह 1/10 लोधी				
26	442/1 349	भू-स्वामी	सिद्धित	0.07 2.54	0.03 0.60	आशाराम हरवान पुत्र रमका जाति लोधी				

27	442/2	भू-स्वामी	सिद्धि	0.77	0.28	महेशकुमार पुत्र विक्रम हि. 1/2 कासीराम सेवराज पुत्रगण हरवान हि. 1/2				
28	442/3	भू-स्वामी	सिद्धि	0.6	0.23	मुलाम पुत्र विक्रम जाति लोधी			2	
	442/5			0.60	0.43			कुआ कच्चा		
29	442/4	भू-स्वामी	सिद्धि	0.17	0.05	सुदर्शनकुमार पुत्र चम्पालाल जैन				
	442/6			0.18	0.01					
30	442/7	भू-स्वामी	सिद्धि	0.75	0.06	महेश पुत्र विक्रम				
31	443	भू-स्वामी	सिद्धि	1.37	0.30	आशाराम हरवान पुत्रगण रमला हि. 1/4 रामरतन				
	454			0.06	0.06	गजराजसिंह पुत्रगण रखा हि. 1/6 मुलाम सिंह महेश नावा				
	452			0.04	0.01	पुत्रगण विक्रमसिंह सर. माता गिरजा पति विक्रम हि. 1/4				
	455			0.43	0.30	रतिया पुत्री पंचम हि. 1/6 हरीराम रामकुमार देवेन्द्र				
	391			0.07	0.01	अनूपसिंह पुत्रगण नन्दराम मुन्नी वेवा नन्दराम हि. 1/6				
	390			0.65	0.11	जाति लोधी				
32	453	भू-स्वामी	सिद्धि	0.15	0.03	बन्ना रामदयाल पुत्रगण उमरौआ 2/5 सकुत्तला देवी पत्नी				
						रामदयाल 1/2 रामदयाल पुत्र उमरौआ 1/20 सकुत्तला				
						देवी पति रामदयाल जाटव 1/4 शान्ती गुडडी पुत्री				
						उमरौआ 1/20 जाति चमार				
33	385	भू-स्वामी	सिद्धि	1.52	0.41	श्रीपत पुत्र पंचम हि. 1/3 समरथ कल्लू रामसिंह पुत्रगण				
						श्रीपत हि. 1/6 भजना विरगा बलदेवा पुत्रगण हम्मीरा प्रेम				
						पुत्री हम्मीरा जाति लोधी 1/2				
34	383	भू-स्वामी	असिद्धि	0.57	0.09	रामरतन पुत्र रखा उर्फ राजधर जाति लोधी 1/6				
	346		सिद्धि	3.40	1.23	गजराजसिंह पुत्र रखा उर्फ राजधर जाति लोधी 1/6				
						रतिया पुत्री पंचम जाति लोधी 1/3 हरीराम रामकुमार				
						देवेन्द्र अनूपसिंह पुत्रगण नन्दराम मुन्नी वेवा नन्दराम जाति				
						लोधी 1/3				
35	344	भू-स्वामी	सिद्धि	0.43	0.03	पूरनसिंह पुत्र भगू केरनसिंह अतरसिंह जगतसिंह पुत्रगण				
						भगू जाति लोधी 1/4 केरनसिंह पुत्र तखतसिंह 1/4				
						महानसिंह जशमनसिंह पुत्र करणसिंह सर.मों वंटीवाई पति				
						केरनसिंह जाति लोधी 1/4 केरनसिंह अतरसिंह जगतसिंह				
						पुत्रगण भगू जाति लोधी 3/16 असेन्द्रसिंह अजीतसिंह				
						पुत्रगण पूरनसिंह जाति लोधी रामकली पति पूरनसिंह 1/16				
36	343	भू-स्वामी	सिद्धि	2.8	0.30	शालिकराम गिरखर ऊधमसिंह पुत्रगण श्रीपतसिंह जाति				
						यादव				

37	340	भू-स्वामी	असिद्धित	4.40	0.41	भैयालाल पुत्र कलुआ 1/2 हल्कू मसलती वाघराज पुत्रगण रामसिंह देवा वेवा रामसिंह 1/4 कली पुत्री जगन 1/40 नन्दराम पुत्र मथरी 22/366 हल्कू वाघराज मसलती पुत्रगण रामसिंह 59/360 जाति लोधी			
कुल किता - 83		कुल रकवा		12.84					

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबोधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निशून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायें या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुग्रहा पी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 15-अ-82-2019-20-मौजा-सावंगा-12917

बैतूल, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	सावंगा	3.051	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग मुलताई	धाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रमादित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बुधराव अश्विन व. मंचितराव सकुन बे. मंचितराव वंदना अर्चना कल्या पिता मंचितराव रामजी व. केशो गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव गोपी बे. मारोती गंगा बे. नत्थू चन्द्रकला कमला सिन्धु गुन्ता प्रर्मिला उमा पि. नत्थू सुरत व. मयाराम गुलाबराव व. शिवजी तेजी व. रघु पता निवासी ग्राम भूमि	318	1.675	0.112
2	रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा लहया व. पारन्या मैना कला पि. पारन्या फगनू सुधिर सुभाष सुरेन्द्र व. सावन्या कला बे. सावन्या लता पि. सावन्या नवल किशोर शंकर कमलेश व. छोटेलाल जाति पंवार पता सा. देह	319	2.667	0.167

3	रामप्रसाद व. चेपा अनुसया पि. चेपा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	321/1	1.06	0.065
4	लहया व. पारन्या कंला पि. पारन्या हेमराज भीमराज व. रफूजी प्रमिला निर्मला पिता पिता रफूजी जाति पंवार पता सा. देह	321/2	1.061	0.028
5	सुधाबाई जौ. सुरजु पता सा. मुलताई	322/2	0.4	0.102
6	बाया बेवा सालक श्यामलाल गुलाब व. चैतराम मैना कुशमा पिता चैतराम कंला बेवा अंधु रामजी सरजू चिरोजी व. लोटन धाराश्याम गोकुल व. इंदल ऊषा आशा रुशिया पिता इंदल जाति	322/4	1.412	0.07
		322/7	0.512	
7	बारक्या व. गजमल बाजराव व. नन्दराम कंला बे. अन्धु कारी उजरी पिता अन्धु जाति भोयर पता सा. देह	324/1	1.08	0.046
8	बसन्तराव व. नन्दराम सा. देह	434	2.1	0.167
9	लक्ष्मण मारोती व. किसन जुगना सामनू पिता किसन जाति भोयर पता सा. देह	420/1	1.17	0.051
10	श्यामु व. छुट्टन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	421/1	0.429	0.232
		365/1	0.18	0.102
11	जैतूल बे. मारोती दशरथ कैलाश सुरेश अमर व. मारोती सुमन सैदो संशीला नान्ही पिता मारोती नुगना सायन पिता किसन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	431	0.563	0.158
12	नारायण व. रामा जाति पंवार पता सा. देह	415/2	0.15	0.074
13	मारोती रतन व. साजू हीरालाल साहेबलाल सुन्दरलाल प्यारेलाल बिहारीलाल व. मना पुनिया पिता मना पता सा. देह	415/1	1.8	0.042
		415/3	0.613	0.065
14	मंचितराव व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव निर्मला पिता गुलाबराव गोपी बे. मारोती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	327/1	3.194	0.172
		312/5	5.181	0.348

15	भीमराव शंकर आनंदराव सुधाकर व. रामजी जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	* 312/1	6.723	0.218
16	जैना बेवा नान्हू पता सा. देह	330/1	0.332	0.069
17	तुरती उर्फ लुखी जौ. बोच्या रुखमी बे. किसन मारोति परसराम लखन गुलाब संजय व. बोच्या पूर्णा पिता बोल्या कौशल्य बे. बोल्या जाति पंवार पता सा. देह	330/3	0.274	0.116
		330/2	0.273	0.032
18	भैया शेषराव व. रामराव लक्ष्मी बेवा रामराव टेमरी व. भैया कारी जौ. मनीराम नत्थू व. घनश्याम देवकी बे. भैया सा. देह	330/4	0.273	0.116
19	बोल्या व. किसन जाति पंवार पता सा. देह भूमि स्वामी	555/2	0.809	0.028
		355/3	0.34	0.023
20	बसन्तराव बाजीराव व. नन्दराम देवना पूर्णा पिता नन्दराम लहया छोटे व. पारन्या कंला मैना पिता पारन्या सा. देह भूमि स्वामी	356/1	0.46	0.042
21	गंगाधर व. मारोती पंजाबराव अजाबराव नारायण व. गुलाबराव बुधराव अश्विन व. मंचितराव वंदना अर्चना कल्पना पिता मंचितराव शकुन बे. मंचितराव जाति कुन्बी	361/6	0.89	0.139

22	रतन लखन व. रामलाल शांता जया रखिया पिता रामलाल जाति भोयर पता सा. देह	384/4	0.108	0.032
23	सुन्दरलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	383	0.235	0.235
कुल योग			35.964	3.051

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरे हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 17-अ-82-2019-20-मौजा-निम्बोटी-12921

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या कता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार यम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित गों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित शी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए त करता है।

अनुसूची-1

तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	3	4	5	6
मुलताई	निम्बोटी	5.366	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	पुन्नी चुन्नी व. मैजू मथुरा चतुरा पिता मैजू जाति गोंड पता निवासी ग्राम	77/3	2.023	0.084
2	आनन्दराव व. डुकरिया पता निवासी ग्राम	77/7	0.650	0.046
3	मुशाराम, घन्साराम परसराम नरसिंगराव व. ओझा कौशल्या सुमित्रा पिता ओझा बुलकी बेवा ओझा जाति गोंड पता निवासी ग्राम	77/2	1.445	0.097
4	नान्ही पिता हरी पता निवासी ग्राम भू-राजस्व	80/4	0.809	0.809
5	महादेव व. पुनु बन्नी बेवा पुनु सीता पिता पुनु जाति गोंड पता निवासी ग्राम कविता बेवा नेहरू रोहित वैशाली ना.बा. पिता नेहरू वली मां कविता जाति गोंड पता निवासी ग्राम	80/13	1.300	0.065
		98	3.363	0.033
6	हरी पिता भदया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99/2	1.214	0.185
7	रामरती जौ. रतन जाति पंवार पता निवासी ग्राम सांवगा भूमिस्वामी	99/1	1.869	0.139
8	पारबती बेवा महादेव रामदयाल कैलाश व. महादेव इन्दू बाया पिता महादेव पता नि. ग्राम	99/4	0.625	0.163
9	पुनु व. चिन्धु हिरया बेवा चिन्धु पता निवासी ग्राम	86	1.377	0.162
10	नत्थू बालाजी गेन्दराव व. जैराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	114/6	0.850	0.102

11	हरिभाऊ अनिक व. दुन्या पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	114/3 *	0.500	0.065
12	सुभाष व. अजाबराव पुष्पा तुलसी बेवी सुरेखा पिता अजाबराव जाति कुन्बी पता सा. देह	114/5 *	0.567	0.069
13	कमला पिता केशोराव कौशी बेवा केशोराव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	142/2	0.520	0.055
		142/3	0.316	0.125
14	मुन्नी बेवा चिरोंजी बजुलाल गौगड़ व. चिरांजी तुलसा गोले पिता चिरोंजी रामरती बेवा वामन हेमराज सुदामा व. वामन भोमा व. चैतराम रामकली पिता मिश्री ओझा कैलाश जगदीश सदया व. अमीलाल गोडन पिता अमीलाल बन्ती पिता अमीलाल नत्थू व. हिदय पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	146	0.481	0.135
15	मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ, शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन पता सा. देह	145	0.162	0.032
16	लीलावती पिता बापू जाति गोंड पता सा. देह	144	0.121	0.067
17	रामप्रसाद व. दमडया जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140/2	0.190	0.056
		140/1	0.094	0.060
18	रामनाथ व. नन्दलाल सती कला पिता नन्दलाल पता निवासी	135	0.454	0.102
19	यामराव पिता पेंगू शांता बे. पंजाबराव रविन्द्र, राजेन्द्र जितेन्द्र व. पंजाबराव जितेन्द्र व. पंजाबराव बाती पिता विजय, बलवंतराव हरि श्रीराम व. भीमराव निर्मला सुनिता पुष्पा पिता भीमराव सरस्वती बे. भीमराव सोनू व. दौलत शीतल पिता दौलत सावित्री बे. दौलत अजय विजय व. गुलाबराव इन्दू बेवा गुलाबराव गीता जौ. कृष्णा जाति कुन्बी	130	0.271	0.010
20	शांता बेवा पंजाबराव कृष्णा व. श्यामा जाति कुन्बी सा. देह	131	0.283	0.023
21	अरुण कुमार विजय कुमार व. अंगद जाति गौली	222/1	0.247	0.140
22	सददू व. बाबू जाति कुन्बी सा. देह	255/5	0.040	0.040
23	रमली दवना दुल्लो बेलो गुजरी पिता डोमा बंशीलाल व. नौखे भागा लुन्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	251/1	1.032	0.223
		249	0.138	0.032
		246/1	0.204	0.032
24	धर्मराज व. भारत सा. देह	248	0.202	0.046
25	मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन	247	0.202	0.084

26	राम किशोर पि. छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	243/8	0.175	0.051
		243/7	0.161	0.042
		243/6	0.304	0.097
27	मन्ना व. राधे पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	243/5	0.250	0.065
28	नत्थू व. छोटेलाल जाति गौली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	243/2	0.236	0.070
		243/4	0.175	0.028
29	सुरजू व. लोटन सा. देह	9/26	0.475	0.475
30	गणपति व. जैराम सा. देह	10/6	0.700	
31	प्रेमलाल व. नानक पता सा. देह भूमि स्वामी	142/2	0.364	0.070
32	मोहनलाल गुलबू विपत व. गर्जन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गर्जन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन	145	0.162	0.032
		247	0.202	0.048
33	मुन्ना शंकर अमरलाल परसराम व मोहनू नान्ही पिता मोहनू मोहनलाल गुलबू विपत व. गरजन तुलस बेवा रतन एकनाथ शिवनाथ व. रतन लता पिता रतन इमरती यशोदा दुल्लर पिता गरजन हीरा मीरा पिता दमड्या बंशीलाल व. नौखे भागा सुग्गा पिता नौखे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	140/1	0.800	0.060
34	अजाबराव व. बैनी मानिकराव व. उदोबा अमृत नामदेव सहादेव व. पैगू गजानन्द व. बाबू कैलाश सुभाष व. रामराव शिवशंकर व. लुन्गा आलोखी पिता लुन्गा हदारका बेवा रामराव रामजी व. सिन्धू आशा विद्या चन्द्रकला पिता रामराव रामजी व. झिंगू शांता पिता झिंगू अरुण कुमार संजय कुमार व. गुलाबराव सुशिला अनिता सुनिता पिता गुलाबराव मैना बे. गुलाबराव रामराव गुलाब किसन शिवशंकर अलोखी पिता लूंगा भूमि स्वामी निवासी ग्राम	222/1	1.121	0.153
35	नारायण व. गोहू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	248	0.202	0.046
36	बलराम बलवंत श्रावण व. धन्नु शिवकली चंपा पिता धन्नु जाति गौली सा. देह	243/12	0.250	0.070

37	अजाबराव व. बेनी भोजराव व. उदोबा अमृत नामदेव साहदेव व. पेगू गजानंद व. बापू कैलाश सुभाष व. रामराव चंद्रकला आशा सिन्धू मीना पिता भैया रामजी व. झिंगू शांता पिता झिंगू जाति कुन्बी सा. देह	95/1	3.462	0.321
38	पंजाबराव कुंडलिकराव साहेबराव व. अमृतराव सा. देह	95/6	0.500	0.237
39	सिंधुबाई बेवा पंजाबराव हितेश राजेश व. पंजाबराव हेमलता सरिता पिता पंजाबराव सा. देह	95/5	0.405	0.144
40	सुभाष व. अजाबराव पुष्पा तुलसी बेबी सुरेखा पिता अजाबराव जाति कुन्बी सा. देह	95/2	0.841	0.076
कुल योग			32.334	5.366

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 18-अ-82-2019-20-मौजा-मल्हारा-12923

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का तार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

क्र.	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	3	4	5	6	
1)	मुलताई	मल्हारा	* 1.934	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	रामचरण व. चैतराम पता सा. देह निम्बोटी	65	0.567	0.069
2	लंगी व. करू बातड़ पुत्री करू रामवती बेवा करू कारू व. काशीराम गोडू भूरिया पिता गेन्द्या शिवलाल बुद्ध सदाराम कलीराम व. चुन्टी सा. देह दुल्लर कला सुखवंती पिता चुन्टी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	64	0.161	0.042
3	धनराज व. अमृतराव जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	60	3.047	0.199
		61/3	0.100	0.1
4	देवीराम भागीरथ प्रवीण व. किसनलाल प्रमिला लक्ष्मी उर्मिला कौशलया पिता किसनलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	63	4.112	0.139
5	विलासराव उर्फ धनराज व. संपतराव पारबती उर्फ बिरजो बेवा संपतराव जाति मेहरा पता सा. आमला	53/1	1.433	0.081
		61/1	0.320	0.051

6	लीलावती बाई जो. रामप्रसाद यादव गौली पता सा. निम्बोटी	53/2	1.142	0.051
		61/2	0.072	0.046
7	भीमराव व. प्रहलाद जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/5	2.094	0.33
8	शीला बेवा रामदयाल सतीष उत्तम पिता रामदयाल सरस्वती पिता रामदयाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	51/1	1.940	0.088
		51/4	0.270	0.051
		51/7	0.079	0.046
9	मुशाराम आशाराम व. मंगलू कला पिता जंगली निर्मला पिता मंगलू सुनिल विजय व. पंछी लामी पन्दू माया पिता पंछी वच्छला बेवा पंछी रविन्द्र रामदीन व. हरि रेखा पूजा पिता हरि संगीता बेवा हरि जाति गोंड	51/3	1.590	0.162
		51/6	0.130	0.051
10	तुकाराम व. गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/2	1.188	0.098
11	मनोता पिता गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/5	0.190	0.079
12	नानक पिता गंगलू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	51/10	1.189	0.105
13	सहदेव व. चन्द्रभान जाति मेहरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	61/4	0.100	0.1
		53/4	1.518	0.046
कुल योग			21.242	1.934

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 19-अ-82-2019-20-मौजा-खारी-12915

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित 1. की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने गावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	3	4	5	6
आमला	खारी	0.420	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	बादलडोह लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	प्रकाश धनराज व. शेषराव भोयर सा. देह	334/4	0.809	0.121
2	देवना जौ किशोरी शांती जौजे मनोहर सरिता जौ सुभाष सुरेन्द्र सेवकराम व. दर्शनलाल जाति भोयर	334/5	1.282	0.160
3	कलां पिता चिरोजी	170	1.052	0.139
कुल योग			3.143	0.420

1- चूंकि बादलडोह लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 21-अ-82-2019-20-मौजा-पसतलई-12919

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	पसतलई	14.977	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभाविता धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	मिठ्ठू व. सावन्या	149/11	2.000	0.180
2	पुरनलाल जगदीश जयपाल पिता भादू अनिकेत ना.बा. पिता भादू वली माँ रामरती जाति चम्हार	149/1	9.010	4.340
3	गंगा जौ. रामचन्द्र जाति भोयर	149/5	1.619	0.800
4	कंलाबाई पति कपूरचंद जाति पंवार	144/2	0.364	0.364
		144/6	1.716	1.716
5	कपूरचंद व टन्टी जाति पंवार	144/3	0.364	0.364
		144/5	1.744	1.564
6	बाबूलाल छोटेलाल पुत्रगण दमडू	140	2.084	0.690

7	फुलवंती बेवा शिवचरन मधु सुंदरलाल अशोक चिन्ध्या दुर्गी पिता शिवचरण	70/1	1.750	0.200
8	तुलसा पिता केवजी बसंत आनंद पिता जंगल्या	70/5	0.738	0.738
9	शांता जो. अंतु जाति भोयर पता सा. देह भूमि	149/13	0.574	0.574
10	नन्हा जो. अशोक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	149/16	0.574	0.574
11	दिलिप वल्द श्रीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	* 149/17	* 0.575	.0.575
12	भूरीबाई जो. पुन्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	149/18	* 0.574	0.574
13	फुलमा जो. चैतराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	149/19	0.574	0.574
14	जोगी वलद धुडल्या पता निवासी भूमि स्वामी	* 149/20	* 0.575	.0.575
15	अंजु जो. नान्हु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	149/21	* 0.575	0.575
कुल योग			25.41	14.977

1- चूंकि पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 22-अ-82-2019-20-मौजा दुनई-12929

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	दुनई	13.150	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	बाया बाई जौ हिराजी पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	17/1	0.333	0.283
2	पुष्पलता बेवा पुनाजी प्रवेश व. पुनाजी विक्षा पिता पुनाजी देवाजी गणेश व. शंकरलाल जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/2	0.47	0.47
		280/2	0.419	0.083
		282	0.271	0.271
3	बंशीलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	17/2	0.333	0.200
		18/9	0.121	0.121
		280/6	0.221	0.221
4	शंकर व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/8	0.121	0.121
		280/5	0.012	0.012
5	नाही पिता इठोबा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/4	0.202	0.202
		18/5	0.202	0.202
		18/6	0.809	0.809
		18/12	0.13	0.13
		18/13	0.13	0.13
6	साहेबलाल व. भीलू जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	18/7	0.303	0.203
		280/1	0.31	0.05
7	रजनी जौ. देवाजी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	18/11	0.121	0.121
		18/16	0.121	0.121

8	फगन्या मनोहर दिनेश गणेश व. सावजी हीरा जौ. भिवजी कमल पिता सावजी जानकी बेवा सावजी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी लक्ष्मण व. भिवजी मुन्नी लल्लावती पिता भिवजी हीरा बेवा भिवजी जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	20	1.137	0.668
9	सुन्दर जौ. शंकर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	275/1	0.275	0.275
10	रामा व. कलीराम पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	281/1	0.288	0.288
11	पांछी बे. विहारी मधु विपत व. विहारी सकूल बे. मानिकराव अशोक अनिल पप्पू गब्बर व.	305/4	0.242	0.100
		307/1	0.121	0.121
		309/4	0.106	0.053
12	सिरी व. रावजी शंकर व.	300/1	0.232	0.232
13	शंकर दमडया सिरी सिरपत गणपत दलपत व. रावजी	300/2	0.657	0.200
		306/2	0.127	0.120
14	झुनिया पिता काशीराम जाति	306/1	0.043	0.043
15	राम गणपति शिव शंकर व. कलीराम जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/4	0.117	0.117
		285	0.263	0.263
		287/1	0.093	0.093
		290	2.792	2.00
		292	0.906	0.906
16	शिवराम व. भिकारी पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	281/5	0.622	0.542
17	राम प्रसाद व. भिकारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह	281/11	0.131	0.131
		281/12	0.081	0.081
18	रेवाजी व डोना जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	289/2	0.061	0.061
		289/5	0.944	0.64
19	रतनलाल व. शिवलाल जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	289/4	1.000	0.672

20	कन्हैया व. भोलू जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	18/10	0.770	0.121
		18/15	0.224	0.168
21	नान्हू व. लल्लू जाति पंवार	305/2	0.120	0.120
22	नन्हेलाल व. भीलू जाति पंवार	18/14	0.081	0.081
23	जियालाल व. अर्जून बायजा बे. अर्जून शांती मगी जैना पिता अर्जून जाति पंवार	305/3	0.230	0.073
		295/4	0.224	0.224
		309/1	0.406	0.025
24	रामा व. कलीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	286	0.223	0.223
25	लक्ष्मण व. लल्लु सा. देह जाति पंवार भूमि स्वामि	309/3	0.082	0.041
26	पांची बे. बिहारी मधु विपत व. बिहारी सकुल बे. मानिकराव अशोक अनिल पप्पू गब्बर व. मानिकराव संतोषी पिता मानिकराव सारजी माहो मीरा मुन्नी पिता बिहारी जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामि	309/4	0.106	0.053
		298/9	0.140	0.140
		298/7	0.160	0.076
27	नान्हू व. लल्लु	298/11	0.225	0.225
28	जियालाल व. अर्जून	307/2	0.141	0.135
		298/8	0.358	0.089
कुल योग			18.357	13.150

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 23-अ-82-2019-20-मौजा-काठी-12913

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित गी, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता ही संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, शाय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता

अनुसूची-1

तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2	3	4	5	6
आमला	काठी	4.442	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूगिस्वागी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	पंजाबराव व. राधेलाल जाति भोयर पता सा. देह भू-स्वामी	228/4	0.347	0.080
2	कचरा बेवा सुदरलाल बाबूलाल साहबलाल दयाल लयराम व. सुन्दरलाल सुनिता कमला पिता सुन्दरलाल केकई बेवा दयाराम वली मा केकई रोगनी ना.बा पिता दयाराम वली मा केकई पता पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/3	0.142	0.142
		243/4	0.562	0.562
3	कमल पिता भगन कल्लू व. घुड़न दनाजी मनाजी गनाजी व. कुन्दन सीता चम्पा सुनिता पिता कुन्दन माहो बेवा कुन्दन जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/1	0.142	0.142
		243/7	0.363	0.263
4	चेनौ जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	237/4	0.182	0.182
7	प्रेमलाल रेवजी व. डोमा हिरा मुन्नी व. डोमा जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	239/1	0.338	0.338

8	बाया बे. हिराजी नान्ही नन्हिया पिता हिराजी मनोज उमेश व. बाबुलाल ममता पिता बाबुलाल नान्ही बेवा बाबुलाल संरेश सुरेन्द्र मोनू रमेश व. ओझा वलीमा देवकी लता पिता ओझा वाजी मा. देवकी जुगनी देवकी बेवा ओझा जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी	241	0.615	0.615
		242	1.141	1.141
9	मुन्नी जौ. कैलाश जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	243/2	0.263	0.160
10	मदन शिवशंकर शिवपाल व. दसरया जुगना उर्मिला जानकी पिता दसरया प्रहलाद कैलाश प्रकाश दयानंद व. बिहारी अनिता पिता बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	243/5	0.565	0.365
11	चेनी जौ. मदनलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	249/4	0.502	0.302
12	रेवजी व. लहया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	254/1	0.930	0.150
कुल योग			6.092	4.442

1- चूँकि काठी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सुजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 24-अ-82-2019-20-मौजा-काठी (नहर) 12911

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	आमला	काठी	1.203	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	उजरीबाई जौजे किसनजी	228/2	0.766	0.020
2	पंजाबराव वल्द राधेलाल जाति भोयर	228/4	0.347	0.039
3	मौजी सावन्धा व. दमड़या दया लालजी व. धनजी	210	0.502	0.045
4	भावजी व. भिलू बटनी पिता भिलू तेजी छोटे नान्हू राधाई बेवा बिरजू दशिया जौजे विनोदी धोगी बेवा बाजी बाला रामा भिकारी व. बाजी जैतूल	196/1	2.008	0.064
5	रावजी सुतारी हिराजी व. किसन	199	0.623	0.035
		198	0.158	0.042
		197/2	0.288	0.029
6	फकीर व. शोभ मैना बेवा शोभ देवना सूमन इमल पिता शोभा सिंगली. देवाली मुन्ना जगदीश व. घुड़िया कारी पिता घुड़िया	135/1	1.307	0.056
7	रामजी रामलाल देवलाल नानकराम प्रहलाद व. धून्डू शांता दुर्गा पिता धून्डू	135/2	0.87	0.056
		149/2	0.526	0.070
8	रतन बलराम बाबू कला कचरा बकू पिता सुरजा	141	1.287	0.047
9	शिवराम चैतराम व. परसू	145	0.243	0.070

10	सुकी पिता गोपाल पन्ना व. गणेश मैतूल पिता धना जाति पंवार	147	1.125	0.042
11	रावजी पिता किशन भिकारी सुड़क्या व. नान्हु	* 149/1	1.071	0.098
12	सुदर अंधी बेवा गनाजी सुकी मंजीरा निर्मला लल्ली मीरा पिता गनाजी	78	1.716	0.103
13	नस्थिया वल्द बाजीलाल पारनी पुरनी सुका करखा पिता बाजीलाल	79/1	0.126	0.015
14	विरज पुत्र कोन्दु	* 79/2	0.125	0.015
15	रामेश्वर पुत्र ठाकुरदास उर्फ फुस्या	90	1.72	0.129
16	भागरती जौजे पन्नालाल	107	3.939	0.124
17	पुनाजी मनाजी धनराज वल्द शिवराम कविता सरिता अनीता वल्द नानकराम सावनी बेवा नानकराम मीरा नाजो कौतिका लीला जानकी अनु पिता शिवराम मनी झनि मोती कैलाश वल्द चैतराम कचरा काति पिता चैतराम जाति पंवार पता बैतूल मध्यप्रदेश	142	0.607	0.037
18	रामदेवी लाल नानकराम प्रहलाद व. धुन्धु शांता दुर्गा पिता धुन्धु जीतेन्द्र वल्द रामलाल बबली मंजू बाली पिता रामलाल कमल बेवा रामलाल जाति पंवार पता बैतूल	144	0.174	0.015
19	कली व. गुन्डू फुन्दा पुनी पिता गुन्डू जाति पंवार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	148/1	0.425	0.026
20	भारत मानिक दशरथ वल्द काशीराम पता सा. देह भूमि स्वामी	148/4	0.064	0.026
कुल योग			20.017	1.203

1- चूंकि काठी लघु जलाशय की मुख्य नहर हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 27-अ-82-2019-20-मौजा-घाटपिपरिया-12927

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	मुलताई	घाटपिपरिया	2.667	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	फागू रोन्हा राघो व. शिवजी सुरेश व. राघो पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	762/3	0.184	0.072
		762/5	0.256	0.060
2	पन्ना व. इठोवा बाया बे. इठोवा जाति पंवार पता निवासी ग्राम	762/2	0.121	0.121
		758	1.173	0.573
3	शंकर शिवजी तुकाराम व. अमरसिंह मेहरा रमेश कुमार व. छोटेलाल तेली बलराम पप्पू मनिराम व. रामदास बिरमती ओझे पिता रामदास कउसिया बे. रामदास पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	848	0.514	0.514

4	कुशल्या जौ. शंकर सिंह मुरली जौ. माधों मेंहरा पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	847/2	0.212	0.212
		850/2	0.166	0.166
5	सुशीला जौ. रामलाल पंवार सा. देह भूमि स्वामी	849	0.299	0.299
		850/6	0.150	0.150
6	कुन्जीलाल रावजी व. ढोल मोधु शंकर व. रान्या चेती बे. रोन्या रुखमा उजमी जमया पिता रोन्या सा. दुनावा सोजन व. पन्ना दोलत व. माधो पता निवासी ग्राम भ-स्वामी	851/1	0.226	0.080
7	रामकिशन धारा व. मोधे रामप्यारी कुसुमवती पिता माधो मुलली बे. माधो जसवंत व. शंकर सिंह कलसिया बे. शंकर सिंह जाति मेंहरा पता सा. देह भूस्वामी	847/1	0.424	0.220
		850/1	0.631	0.200
कुल योग			4.356	2.667

1- चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अंतर्गत सामाजिक समाघात हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 41-अ-82-2019-20-12925

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	घाटबिरोली	0.250	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	रूखी बेवा जन्या मधु पिता जन्या धनराज पुत्र आपा निर्मला, मैनु पुत्री आपा दिन्या पिता तुन्या सा. देह	59	1.428	0.250
योग			1.428	0.250

1- चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 02-अ-82-2019-20-12602

धार, दिनांक 25 नवम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नौगांवबुजुर्ग तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम-नौगांवबुजुर्ग

तहसील- धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	2.337	0.000	2.337
	योग:-	2.337	0.000	2.337

अनुसूची (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नौगांवबुजुर्ग की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- नौगांवबुजुर्ग

तहसील-धार

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुर्तजा खान, इलियास खान मुज्जमील खान मुददसीर खान, इसहाक खान, पिता एजाज मोहम्मद खान जाति मुसलमान निवासी मोमिनवाड धार	559	5.560	0.000	5.560	0.050	0.000	0.050
2	कुवरजी, राधाकिशन, सीताराम, डुगरसिंह, पिता धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	561	5.200	0.000	5.200	0.280	0.000	0.280
3	कंचनसिंह, चैनसिंह, तेजराम, जानकीबाई, शांतिबाई, सुशीलाबाई, पिता भागीरथ, हरनामसिंह, कन्हैया पिता शेरसिंग ललिता बाई बेवा शेरसिंग जाति पुरव्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी	536	1.990	0.000	1.990	0.357	0.000	0.357
4	राजेश, जितेन्द्र, प्रेमलता, सुनिता पिता लालजी, लीलाबाई बेवा लालजी हेमराज पिता सदाराम, मैनाबाई बेवा सदाराम जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	528/1	0.322	0.000	0.322	0.275	0.000	0.275
		909/4	0.573	0.000	0.573	0.070	0.000	0.070
5	हरिकिशन पिता देवचन्द जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	528/2	0.323	0.000	0.323	0.040	0.000	0.040
		909/3	0.570	0.000	0.570	0.070	0.000	0.070

6	नन्दकिशोर पिता चम्पालाल, ईश्वरलाल, बाबुलाल पिता परसराम, दुर्गाबाई, सुन्दरबाई पिता परसराम, पुनीबाई बेवा परसराम जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	527	0.880	0.000	0.880	0.060	0.000	0.060
7	आनन्दीबाई बेवा हिरालाल, सत्यनारायण पिता हिरालाल, जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	909/1	0.572	0.000	0.572	0.070	0.000	0.070
8	आनन्दीबाई बेवा हिरालाल जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	909/2	0.573	0.000	0.573	0.070	0.000	0.070
9	महेश, दिनेश, पन्नालाल पिता बाबुलाल जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	910/1	1.365	0.000	1.365	0.188	0.000	0.188
10	दुलीचन्द पिता मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	914/1	0.230	0.000	0.230	0.050	0.000	0.050
11	भोलाराम पिता मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	914/2	0.230	0.000	0.230	0.037	0.000	0.037
12	गुणपत पिता मांगीलाल जाति माली निवासी भूमि स्वामी	914/3	0.230	0.000	0.230	0.032	0.000	0.032
13	गणेश पिता मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	914/4	0.230	0.000	0.230	0.032	0.000	0.032
14	कृष्णा पिता नेमीचन्द जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	913	1.780	0.000	1.780	0.245	0.000	0.245
		924	1.160	0.000	1.160	0.075	0.000	0.075
15	कैलाश पिता जगन्नाथ जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	910/2	1.265	0.000	1.265	0.121	0.000	0.121
16	जगन्नाथ पिता सावला जाति माली निवासी ग्राम भूमि स्वामी	929/2/ 2/1	0.215	0.000	0.215	0.215	0.000	0.215
	कुल योग		23.268	0.000	23.268	2.337	0.000	2.337

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 49-2019-एलए-19680-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक अ-82-19-20

खण्डवा, दिनांक 13 दिसम्बर 2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है— भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क)	जिला	:	खंडवा
(ख)	तहसील	:	पुनासा
(ग)	ग्राम	:	मूंदी
(घ)	अर्जित रकबा/क्षेत्रफल	:	0.180 हैक्टेयर

अ. कं.	कृषक / हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	संस्कार पिता अखिलेश, कृष्णा पिता अखिलेश, ना.बा. वली लक्ष्मीबाई पति अखिलेश, निवासी मूंदी जिला खंडवा म.प्र. संपूर्ण भाग	9/1	2.328	0.180	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कं-32 बडवाह जिला खरगोन ने पत्र क्रमांक 2534/कार्या/आयएसपी-कैएल/2019, खरगोन दिनांक 10.07.2019 के माध्यम से आई.एस.पी. कालीसिंह लिंक माईको उद्वहन सिचाई परियोजना प्रथम चरण के पम्प हाउस
कुल- कृषक 1		कुल रकबा	0.180	सिंचित	

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कं-32 बडवाह जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. 8632-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—उमरेठ
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गाजनडोह, प.ह.नं. 6, ब.नं. 124, रा.नि.मंडल-उमरेठ.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-कुल रकबा 24.017 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/14	0.280
1/12	0.639
1/38	0.627
1/11	0.831
36	1.457
37/1	0.361
37/2	0.308
37/3	0.433
37/4	0.282
37/5	0.328
34/2	0.667
34/1	0.668
35/2	0.211
35/3	1.214
33/2	0.030
33/1	0.540
24/2	0.558
24/3	0.563
24/1	0.100
24/4	0.130
24/5	0.110
24/6	0.258
24/7	0.488
19	0.231
17	0.308

(1)	(2)
20	0.817
27	0.278
16/4	0.508
16/3	0.453
16/2	0.108
16/1	0.019
15/2	0.260
15/1	0.196
14/12	0.519
14/1	0.610
14/2	0.316
14/3	0.176
14/4	0.381
14/9	0.010
14/10	0.038
14/11	0.060
10	4.501
11	1.404
12	1.741
योग . .	<u>24.017</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गाजनडोह जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-परासिया, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 अक्टूबर 2019

क्र. 423-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—जोवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.544 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
441/1	0.700
572	0.481
489	0.600
481/5	0.200
490/2	0.210
490/4	0.180
490/1	0.160
490/3	0.080
488/3	0.084
482/3	0.200
483	0.449
482/2	0.200
निजी खाता भूमि योग . .	3.544

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध में डूब क्षेत्र हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 अक्टूबर 2019

क्र. 5365-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) नगर/ग्राम—चिकमारा, प.ह.नं. 24, रा.नि.मं. कटंगी
(घ) ब्राडगेज रेलवे लाईन के निर्माण में अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.036 हे. एवं उसमें आने वाली सम्पत्तियां.

खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
496/1	0.036
कुल योग . .	0.036

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कटंगी से तिरोडी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उपअभियंता (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.